



jaiprakash sharma

05 Sep 1963

04:55 PM

Jaipur

Model: Health-Report

Order No: 120827901


तिथि 05/09/1963 समय 16:55:00 वार गुरुवार स्थान Jaipur चित्रपक्षीय अयनांश : 23:20:43
अक्षांश 26:53:00 उत्तर रेखांश 75:50:00 पूर्व मध्य रेखांश 82:30:00 पूर्व स्थानिक संस्कार -00:26:40 घंटे

पंचांग	अवकहड़ा चक्र
साम्पातिक काल : 15:23:45 घं	गण : मनुष्य
वेलान्तर : 00:01:03 घं	योनि : गौ
सूर्योदय : 06:07:27 घं	नाडी : मध्य
सूर्यास्त : 18:43:19 घं	वर्ण : विप्र
चैत्रादि संवत : 2020	वश्य : जलचर
शक संवत : 1885	वर्ग : सिंह
मास : आश्विन	रैजा : अन्त्य
पक्ष : कृष्ण	हंसक : जल
तिथि : 2	जन्म नामाक्षर : झ-झूलेलाल
नक्षत्र : उ०भाद्रपद	पाया(रा.-न.) : ताम्र-लौह
योग : गण्ड	होरा : शुक्र
करण : गर	चौघड़िया : काल


विंशोत्तरी	योगिनी
शनि 7वर्ष 8मा 20दि	भद्रिका 2वर्ष 0मा 11दि
चन्द्र	धान्या
27/05/2021	17/09/2025
27/05/2031	16/09/2028
चन्द्र 27/03/2022	धान्या 17/12/2025
मंगल 26/10/2022	भामरी 18/04/2026
राहु 26/04/2024	भद्रिका 17/09/2026
गुरु 26/08/2025	उल्का 18/03/2027
शनि 27/03/2027	सिद्धा 18/10/2027
बुध 26/08/2028	संकटा 17/06/2028
केतु 27/03/2029	मंगला 17/07/2028
शुक्र 26/11/2030	पिंगला 16/09/2028
सूर्य 27/05/2031	

ग्रह	व	अ	अंश	राशि	नक्षत्र	पद	स्वामी	अं.	स्थिति	षट्बल	चर	स्थिर	ग्रह तारा
लग्न			15:40:10	मक	श्रवण	2	चंद्र	शनि	---	0:00			
सूर्य			18:50:05	सिंह	पू०फाल्गुनी	2	शुक्र	राहु	मूलत्रिकोण	1.29	मातृ	पितृ	क्षेम
चंद्र			11:14:47	मीन	उ०भाद्रपद	3	शनि	चंद्र	सम राशि	1.22	ज्ञाति	मातृ	जन्म
मंगल			02:05:05	तुला	चित्रा	3	मंगल	केतु	सम राशि	1.36	कलत्र	भ्रातृ	वध
बुध			11:41:00	कन्या	हस्त	1	चंद्र	मंगल	उच्च राशि	1.15	पुत्र	ज्ञाति	साधक
गुरु	व		24:58:04	मीन	रेवती	3	बुध	राहु	स्वराशि	1.37	आत्मा	धन	सम्पत
शुक्र	अ		20:35:06	सिंह	पू०फाल्गुनी	3	शुक्र	गुरु	शत्रु राशि	1.32	भ्रातृ	कलत्र	क्षेम
शनि	व		24:45:05	मक	धनिष्ठा	1	मंगल	राहु	स्वराशि	1.31	अमात्य	आयु	वध
राहु	व		25:44:31	मिथु	पुनर्वसु	2	गुरु	बुध	उच्च राशि	---	ज्ञान	अतिमित्र	
केतु	व		25:44:31	धनु	पूर्वाषाढ़ा	4	शुक्र	बुध	उच्च राशि	---	मोक्ष	क्षेम	


लग्न-चलित




चन्द्र कुंडली




नवमांश कुंडली



सर्वाष्टकवर्ग



दशमांश कुंडली



FUTUREPOINT
Astro Solutions



स्वास्थ्य, व्यक्तित्व एवं प्रकृति

आपके जन्म समय में लग्न में मकर राशि उदित हो रही थी जिसका स्वामी शनि है। सामान्यतया इस लग्न में उत्पन्न जातक शांत एवं उदार प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं तथा अन्य जनों के प्रति इनके मन में प्रेम तथा स्नेह का भाव विद्यमान रहता है। ये विचारशीलता एवं गंभीरता के भाव से युक्त रहते हैं तथा अत्यंत ही परिश्रमी एवं कार्यशील होते हैं फलतः अपने शुभ एवं महत्वपूर्ण कार्यों को परिश्रम पूर्वक सम्पन्न करके उनमें सफलता अर्जित करते हैं। इनमें कार्य करने की क्षमता अद्वितीय होती है तथा यही गुण जीवन में इनकी सफलता का रहस्य होता है। इनमें सेवा परायणता का भाव भी रहता है तथा देश एवं समाज सेवा के कार्यों में प्रवृत्त रहते हैं। ये साहसी एवं निर्भीक होते हैं तथापि मन में यदा कदा उदासीनता की भावना विद्यमान रहती है जिससे सुख में खुशी तथा दुःख में कष्ट की अनुभूति कम होती है। भौतिकता के प्रति इनका आकर्षण कम ही रहता है तथा सादा एवं त्यागमय जीवन व्यतीत करने के ये इच्छुक रहते हैं। इसके अतिरिक्त स्वपरिश्रम के द्वारा ये अनुसन्धान, विज्ञान एवं शास्त्रीय विषयों का ज्ञानार्जन करके एक विद्वान के रूप में समाज में आदरणीय रहते हैं।

अतः इसके प्रभाव से आप एक स्वस्थ एवं बलवान व्यक्ति होंगे आपमें आदर्शवादिता का भाव भी होगा तथा अपने आदर्शों पर स्वतंत्र रूप से विचार करेंगे। साथ ही आपके उच्चादर्शों से अन्य लोग भी प्रभावित होंगे। दार्शनिकता के भाव से भी आप युक्त होंगे तथा शत्रु एवं प्रतिद्वन्द्वियों के प्रति आपके मन में उदारता का भाव रहेगा फलतः वे भी आपसे प्रभावित होंगे। अतः सदगुणों से सभी लोगों के मध्य आप आदरणीय रहेंगे।

लग्न में शनि की स्थिति के प्रभाव से आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा तथा मानसिक रूप से शांति तथा सन्तुष्टि की अनुभूति करेंगे। आपका व्यक्तित्व भी आकर्षक होगा तथा अन्य जनों को प्रभावित करने में समर्थ होंगे। आप एक बुद्धिमान पुरुष होंगे फलतः आपके कार्य कलापों पर बुद्धिमता की छाप रहेगी। कार्य क्षेत्र में भी आपका प्रभाव रहेगा तथा आपकी कर्तव्य परायणता तथा परिश्रम से उच्चाधिकारी वर्ग या सहयोगी सन्तुष्ट होंगे। फलतः आपके उन्नति मार्ग प्रशस्त रहेंगे। आपका दाम्पत्य जीवन सुखी होगा तथा परस्पर सम्बन्धों में मधुरता रहेगी। उत्तम कार्यों को करने में भी आप रुचिशील होंगे फलतः समाज में एक आदरणीय व्यक्ति के रूप में आपकी छवि रहेगी।

स्वव्यवसाय के प्रति आपकी इच्छा होगी तथा इसको सम्पन्न करके इसमें आपको इच्छित लाभ एवं उन्नति मिलेगी। आपकी आर्थिक स्थिति भी उत्तम रहेगी जिससे धनैश्वर्य एवं वैभव से युक्त होंगे। साथ ही सुख संसाधनों से भी सुसम्पन्न रहेंगे तथा अपने कार्यों से समाज में प्रतिष्ठा तथा यश प्राप्त करेंगे। इससे लोग आपसे प्रसन्न तथा सन्तुष्ट रहेंगे परन्तु यदा कदा आप कृपणता के भाव का भी प्रदर्शन करेंगे।

धर्म के प्रति आपकी श्रद्धा होगी परन्तु धार्मिक कार्य कलाप अल्प मात्रा में ही सम्पन्न करेंगे। मित्र एवं बन्धु वर्ग के मध्य आप प्रिय एवं आदरणीय होंगे तथा उनसे वांछित लाभ एवं सहयोग अवसरानुकूल प्राप्त होता रहेगा। इस प्रकार आप शांत उदार परिश्रमी एवं

पराक्रमी व्यक्ति होंगे तथा सुख पूर्वक अपना जीवन यापन करेंगे।



FUTUREPOINT
Astro Solutions




एक्स-35, ओखला फेज-2, नई दिल्ली-110020 फोन:- 011-40541000, 40541020
Web: www.futurepointindia.com, e-mail: mail@futurepointindia.com

रत्न चयन

रत्न जीवन में शुभत्व की वृद्धि के लिए धारण किए जाते हैं। वैज्ञानिक रूप से, रत्न अपने ग्रह की राशियों को पूर्णमात्रा में मानव शरीर में प्रवाहित कर ग्रह प्रभाव की वृद्धि करते हैं। यही कारण है कि रत्न केवल शुभ ग्रहों का ही धारण किया जाता है। ग्रह शुभ माना जाता है यदि यह लग्न, त्रिकोण या केन्द्र में स्थापित हो या स्वामी हो। यह अशुभ होता है यदि यह त्रिक भाव से संबंधित हो। मित्रों की युति या दृष्टि भी इसकी शुभता बढ़ाती है। बाधक भाव का स्वामित्व शुभता कम कर देता है। चर लग्नों में एकादश, स्थिर में नवम व द्विस्वभाव में सप्तम भाव की बाधक संज्ञा है। उपरोक्त तथ्य रत्न चयन हेतु ग्रह की शुभता दर्शाते हैं।

नीचे जन्मकुण्डली में ग्रहों की शुभता को सारणी व ग्राफ में दर्शित किया गया है। साथ ही कौन सा ग्रह किस क्षेत्र में कार्य सिद्ध कर सकता है दिया गया है। विभिन्न दशाओं में विभिन्न रत्नों की शुभता भी नीचे तालिका में दी गई है। जिस ग्रह को 75 प्रतिशत शुभता प्राप्त है उसके रत्न हमें सर्वदा बिना दशा विचार के धारण करने चाहिए। जिन्हें 50-75 प्रतिशत शुभता प्राप्त है उन्हें कार्य क्षेत्र अनुसार व अनुकूल दशा में धारण करना चाहिए। जो रत्न केवल 25-50 प्रतिशत शुभता लिए हैं उनके रत्न केवल उनकी या उनके मित्रों की दशा में धारण करने चाहिए। अन्ततः जिन्हें 25 प्रतिशत से भी कम शुभता प्राप्त है वे ग्रह अपने लिए अशुभ ही समझें और उनके रत्नों को पहनने से बचना चाहिए।

रत्न	ग्रह	शुभता	क्षेत्र
नीलम	शनि	100%	स्वास्थ्य, धन
पन्ना	बुध	88%	भाग्योदय, शत्रु व रोग मुक्ति
हीरा	शुक्र	69%	दुर्घटना से बचाव, सन्तति सुख, व्यावसायिक उन्नति
मूंगा	मंगल	66%	व्यावसायिक उन्नति, सुख, धनार्जन
गोमेद	राहु	59%	शत्रु व रोग मुक्ति, भाग्योदय
मोती	चंद्र	44%	पराक्रम हानि, दाम्पत्य कष्ट
लहसुनिया	केतु	38%	व्यय, पराक्रम हानि
पुखराज	गुरु	6%	पराक्रम हानि, व्यय
माणिक्य	सूर्य	0%	दुर्घटना



दशानुसार रत्न विचार

दशा	समाप्ति	माणिक्य	मोती	मूंगा	पन्ना	पुखराज	हीरा	नीलम	गोमेद	लहसुनिया
शनि	27/05/1971	0%	19%	53%	94%	6%	75%	100%	66%	12%
बुध	27/05/1988	0%	19%	66%	100%	6%	75%	100%	59%	38%
केतु	27/05/1995	0%	19%	72%	88%	6%	75%	95%	44%	56%
शुक्र	27/05/2015	0%	19%	66%	94%	6%	81%	100%	66%	50%
सूर्य	27/05/2021	0%	53%	72%	88%	18%	56%	95%	44%	12%
चंद्र	27/05/2031	0%	59%	66%	94%	6%	69%	100%	44%	12%
मंगल	27/05/2038	0%	53%	78%	75%	18%	69%	100%	44%	50%
राहु	27/05/2056	0%	19%	53%	88%	6%	75%	100%	72%	12%
गुरु	27/05/2072	0%	53%	72%	75%	31%	56%	100%	59%	38%



FUTUREPOINT
Astro Solutions



लग्न फल

आपके जन्मकालिक आकृति से यह स्पष्ट हो रहा है कि आपका जन्म श्रवण नक्षत्र के द्वितीय चरण में मकर लग्न में वृषभ राशि के नवमांश एवं वृषभ राशीय द्रेष्काण के उदय काल में हुआ था। आपके जन्म प्रभाव से ऐसी संभावनाओं का सृजन हो रहा है कि आपका जीवन धन प्रसन्नता से युक्त फलदायी एवं प्रसन्नतम होगा। आप इन बातों में विश्वास रखते हो कि किसी भी प्रकार की प्रतियोगिता में सफल होने के लिए धीमी गति क्यों न हो। नियमित एवं लगनशीलता से युक्त हो, तो मनुष्य अवश्य सफल होता है। आप अपनी साहसिक प्रवृत्ति के प्रति आशान्वित रह सकते हो। अतएव आप शेष कार्यों के बाद योजनानुरूप लक्ष्य तक पहुंचने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करते हो।

यदि आप ऐड़ी से चोटी तक पहुंचने के लिए उपयुक्त पथ पर चल रहे हो, तो आप सर्वथा नाम, प्रसिद्धि एवं अतिरिक्त धन उपार्जित कर सकते हो। यदि आप गायन कला, गणित एवं ज्योतिष कला के प्रति रुचिवान बन कर सीखने के प्रति स्नेहशील रहे तो आप प्रसिद्ध व्यक्ति बन कर किसी भी प्रकार की समस्याओं से निवृत्ति की राय दे सकते हो तथा समस्याओं का अन्वेषण करने की जमानत ले सकते हो। आपकी यह भी भूमिका रहती है कि आप अपनी इच्छानुसार उनके सहयोग के लिए अपने अतिरिक्त समय का उपयोग कर सकते हैं। आप सामाजिक कार्य में अपना बहुमूल्य समय का सदुपयोग करेंगे। आप धीमी गति से अपने द्वारा संचालित सामाजिक कार्य में सफल हो सकते हो।

आपके जीवन का स्वर्णिम काल आपकी आयु के 19 वें वर्ष से 24 वें वर्ष के अंतराल में प्रमाणित होगा जब आपकी स्थिति अच्छी व्यवसाय हेतु उत्तम एवं भरपूर लाभ हेतु सौभाग्यशाली समय होगा।

आप अपनी प्रतिभा के अनुरूप व्यवसाय का चयन कर लाभ प्राप्ति हेतु प्रस्तुत होंगे। अतएव आपके लिए सम्मतियुक्त विचारणीय यह है कि अपनी इच्छा के अनुरूप विस्तृताकार उपव्यवसाय यथा कृषि कार्य, खनिज, कोयला, खनन कार्य, पेट्रोल, तेल का (डीलरशिप) वितरण कार्य। रेफ्रिजरेटर एवं कूलर का कार्यादि कर सकते हैं।

आपका घरेलू जीवन फलता फूलता हुआ दृष्टिगत होगा। आपकी पत्नी सुंदर एवं कठिन श्रम करने वाली तथा आपके बच्चे आपको अंगीकृत करने वाले होंगे। आपका घर शांत एवं सुखद वातावरण से युक्त होगा।

आप अपने पारिवारिक सदस्यों के लिए अंतर्मुखी होंगे तथा स्पष्ट रूप से अपने परिवार के समक्ष आपकी प्रवृत्ति स्नेहपूर्ण रहेगा। तथापि वे आपके समक्ष किसी प्रकार की गलती नहीं करेंगे। बल्कि वे विशुद्ध आत्मा से आपका सहयोग करेंगे।

सामान्यतया आपका स्वास्थ्य एकरूपता लिए हुआ अच्छा रहेगा। परंतु कुछ वर्षों के पश्चात् कतिपय रोगादि से आप प्रभावित हो सकते हैं, यथा अपाचन क्रिया, कफ, सर्दी, जुकाम एवं चर्म रोगादि खुजली, खाज, बेचैनी आदि रोग। इसके विरुद्ध आपको अच्छी प्रकार

अपने घरेलू चिकित्सक से समय-समय पर विमर्श करना चाहिए। आप सर्वथा कुछ छोटे-छोटे शारीरिक दुर्घटना के प्रति सतर्क रहेंगे। इसलिए सावधानी पूर्वक चलना फिरना चढ़ना, उतरना अथवा सीढ़ी (जीने) पर चढ़ना-उतरना तथा ऊँची स्थान से छलांग लगाने की प्रवृत्ति को बहिष्कृत करना होगा।

आपके लिए रंगों में अनुकूल रंग सफेद, काला, लाल एवं नीला रंग भली प्रकार आपके अनुरूप है। परंतु आपके लिए रंग पीला एवं क्रीम रंग अव्यवहारणीय है।

आपके लिए वास्तविक रूप से अनुकूल अंक 6, 8 एवं 9 अंक भाग्यशाली है। परंतु अंक 3 आपके लिए निश्चित रूप से परेशानी उत्पन्न कराने वाला है।

आपके लिए साप्ताहिक दिनों में शुक्रवार, शनिवार एवं बुधवार का दिन महत्वपूर्ण कार्य संपादन हेतु सर्वथा अनुकूल है। परंतु रविवार, सोमवार एवं गुरुवार का दिन आपके लिए प्रतिकूल एवं हानिकारक है। अतएव इन दिनों का त्याग करें।



FUTUREPOINT
Astro Solutions



रुद्राक्ष

रुद्राक्ष को शिव का अश्रु कहा जाता है। रुद्राक्ष दो शब्दों के मेल से बना है पहला रुद्र का अर्थ होता है भगवान शिव और दूसरा अक्ष इसका अर्थ होता है आंसू। माना जाता है की रुद्राक्ष की उत्पत्ति भगवान शिव के आंसुओं से हुई है। रुद्राक्ष भगवान शिव के नेत्रों से प्रकट हुई वह मोती स्वरूप बूँदें हैं जिसे ग्रहण करके समस्त प्रकृति में आलौकिक शक्ति प्रवाहित हुई तथा मानव के हृदय में पहुँचकर उसे जागृत करने में सहायक हो सकी।

रुद्राक्ष की भारतीय ज्योतिष में भी काफी उपयोगिता है। ग्रहों के दुष्प्रभाव को नष्ट करने में रुद्राक्ष का विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है, जो अपने आप में एक अचूक उपाय है। गम्भीर रोगों में यदि जन्मपत्री के अनुसार रुद्राक्ष का उपयोग किया जाये तो आश्चर्यचकित परिणाम देखने को मिलते हैं। रुद्राक्ष की शक्ति व सामर्थ्य उसके धारीदार मुखों पर निर्भर होती है। रुद्राक्ष सिद्धिदायक, पापनाशक, पुण्यवर्धक, रोगनाशक, तथा मोक्ष प्रदान करने वाला है।

एक मुखी से लेकर चौदह मुखी तक रुद्राक्ष विशेष रूप से पाए जाते हैं, उनकी अलौकिक शक्ति और क्षमता अलग-अलग मुख रूप में दर्शित होती है। रुद्राक्ष धारण करने से जहां आपको ग्रहों से लाभ प्राप्त होगा वहीं आप शारीरिक रूप से भी स्वस्थ रहेंगे। रुद्राक्ष का स्पर्श, दर्शन, उस पर जप करने से, उस की माला को धारण करने से समस्त पापों का और विघ्नों का नाश होता है ऐसा महादेव का वरदान है, परन्तु धारण की उचित विधि और भावना शुद्ध होनी चाहिए।

रुद्राक्ष दाने पर उभरी हुई धारियों के आधार पर रुद्राक्ष के मुख निर्धारित किये जाते हैं। रुद्राक्ष के बीचों-बीच एक सिरे से दूसरे सिरे तक एक रेखा होती है जिसे मुख कहा जाता है। रुद्राक्ष में यह रेखाएं या मुख एक से 14 मुखी तक होते हैं और कभी-कभी 15 से 21 मुखी तक के रुद्राक्ष भी देखे गए हैं। आधी या टूटी हुई लाईन को मुख नहीं माना जाता है। जितनी लाईनें पूरी तरह स्पष्ट हों उतने ही मुख माने जाते हैं।

पुराणों में प्रत्येक रुद्राक्ष का अलग-अलग महत्व और उपयोगिता का उल्लेख किया गया है -

एक मुखी - सूर्य ग्रह - स्वास्थ्य, सफलता, मान-सम्मान, आत्म - विश्वास, आध्यात्म, प्रसन्नता, अनायास धनप्राप्ति, रोगमुक्ति तथा व्यक्तित्व में निखार और शत्रुओं पर विजय प्राप्त कराता है।

दो मुखी - चंद्र ग्रह- वैवाहिक सुख, मानसिक शान्ति, सौभाग्य वृद्धि, एकाग्रता, आध्यात्मिक उन्नति, पारिवारिक सौहार्द, व्यापार में सफलता और स्त्रियों के लिए इसे सबसे उपयुक्त माना गया है।

तीन मुखी - मंगल ग्रह- शत्रु शमन और रक्त सम्बन्धी विकार को दूर करने में सहायक होता है।

चार मुखी - बुध ग्रह- शिक्षा, ज्ञान, बुद्धि - विवेक, और कामशक्ति में वृद्धि प्राप्त कराता है।

पांच मुखी - गुरु ग्रह- शारीरिक आरोग्यता, अध्यात्म उन्नति, मानसिक शांति और प्रसन्नता के लिए भी इसका उपयोग किया होता है।

छः मुखी - शुक्र ग्रह - प्रेम सम्बन्ध, आकर्षण, स्मरण शक्ति में वृद्धि, तीव्र बुद्धि, कार्यों में पूर्णता और व्यापार में आश्चर्यजनक सफलता प्राप्त कराता है।

सात मुखी - शनि ग्रह- शनि दोष निवारण, धन-संपत्ति, कीर्ति, विजय प्राप्ति, और कार्य व्यापार आदि में बढ़ोतरी कराने वाला है।

आठ मुखी - राहु ग्रह- राहु ग्रह से सम्बंधित दोषों की शान्ति, ज्ञानप्राप्ति, चित्त में एकाग्रता, मुकदमे में विजय, दुर्घटनाओं तथा प्रबल शत्रुओं से रक्षा, व्यापार में सफलता और उन्नतिकारक है।

नौ मुखी - केतू ग्रह- केतु ग्रह से सम्बंधित दोषों की शान्ति, सुख-शांति, व्यापार वृद्धि, धारक की अकालमृत्यु नहीं होती तथा आकस्मिक दुर्घटना का भी भय नहीं रहता।

10 मुखी - भगवान महावीर- कार्य क्षेत्र में प्रगति, स्थिरता व वृद्धि, सम्मान, कीर्ति, विभूति, धन प्राप्ति, लौकिक-पारलौकिक कामनाएँ पूर्ण होती हैं।

11 मुखी - इंद्र ग्रह- आर्थिक लाभ व समृद्धिशाली जीवन, किसी विषय का अभाव नहीं रहता तथा सभी संकट और कष्ट दूर हो जाते हैं।

12 मुखी - भगवान विष्णु ग्रह- विदेश यात्रा, नेतृत्व शक्ति प्राप्ति, शक्तिशाली, तेजस्वी बनाता है। ब्रह्मचर्य रक्षा, चेहरे का तेज और ओज बना रहता है। शारीरिक एवं मानसिक पीड़ा मिट जाती है।

13 मुखी - इंद्र ग्रह- सर्वजन आकर्षण व मनोकामना प्राप्ति, यश-कीर्ति, मान-प्रतिष्ठा व कामदेव का प्रतीक है। उपरी बाधा और नजर दोष से बचाव के लिए विशेष उपयोगी है।

14 मुखी - शनि ग्रह- आध्यात्मिक उन्नति, शक्ति, धन प्राप्ति व कष्टनिवारक हैं। शनि की साढ़ेसाती या ढैया में विशेष कष्टनिवारक है।

आपकी कुंडली और रुद्राक्ष

आपकी कुंडली मकर लग्न की है। आपके व्यक्तित्व पर शनि का प्रभाव दिखाई पड़ता है। आप मेहनती हैं, इसलिए बिना रुके निरन्तर कार्य करते रहते हैं, जिस कारण इनके किये हुए कार्यों में गलतियों की संभावना कम रहती है। आप दृढ़ निश्चयी और संयमी हैं। जीवन से आने वाली बाधाओं से घबराते नहीं हैं, बल्कि उनका डटकर मुकाबला करते हैं। दूसरों की मदद करने की प्रवृत्ति रखते हैं। साथ ही आप हंसमुख हैं। आप में व्यय अधिक करने का स्वभाव हो सकता है। दूसरों की मदद करने वाले होते हैं। आप हँसमुख हैं। आप कम समय में किसी भी परिस्थिति में अपने का ढालने में दक्ष होते हैं।

आप गलत बातें सहन नहीं कर पाते चाहे उस विरोध में अकेले ही रह जाये। आप

अपनी समझदारी और सूझ-बूझ का परिचय देते हुए बड़ी ही आसानी से अपना कार्य करवा लेते हैं। हर विषय में आपकी रुचि रहती है और हर क्षेत्र में सफलता पाना चाहे हैं और अपनी मेहनत और लगन से सफलता हासिल कर भी लेते हैं। आप न्याय है और कभी किसी के साथ धोखा नहीं करते। असफलता मिलने पर आप शीघ्र निराश हो जाते हैं। व्यर्थ की बातें करने में अपना वक्त व्यय नहीं करते और अपने भविष्यके बारे में सोचते हैं। आप परोपकारी है और अनुशासन पसंद हैं। अपने सिद्धांतों पर जीते हैं। आप परोपकारी हैं।

कुंडली के सभी 12 भाव सदैव शुभ फल नहीं देते। 12 भावों में से 6, 8 व 12 वां भाव जिन्हें त्रिक भाव के नाम से भी जाना जाता है। इन भावों के भावेश तथा इन भावों में स्थित ग्रह अशुभ होने के कारण अशुभ फल देते हैं। त्रिक भावों के स्वामी व इनमें बैठे ग्रह किसी न किसी प्रकार आपके जीवन में बाधा डालते हैं। कुंडली के षष्ठ भाव को रोग, ऋण और शत्रु भाव की संज्ञा की जाती है। छोटी अवधि के रोग भी इसी भाव से देखे जाते हैं। तथा अष्टम भाव मृत्यु, दुर्घटना, कलेश, विघ्न और अकाल मृत्यु और परेशानियों का विचार किया जाता है। अष्टमेश का किसी भी भाव-भावेश से सम्बन्ध बनना अनुकूल नहीं माना जाता है। 6 व 8 भावों के बाद एक अन्य व अंतिम त्रिक भाव 12 वां भाव है। 12 वें भाव से व्यय, सरकारी दंड, लम्बी अवधि का कारावास, शयन, मोक्ष, टैक्स तथा विदेश स्थान का विचार किया जाता है।

6, 8, 12 भावों के स्वामियों और इन भावों में स्थित ग्रहों में अशुभता का अंश पाया जाता है। जिसके फलस्वरूप ये आपके जीवन को समय समय पर बाधित करते रहते हैं। व 6, 8, 12 भाव के स्वामी तथा इन भावों में स्थित ग्रह अपनी महादशा-अन्तर्दशा में अनिष्ट तथा अशुभ फल देते हैं।

बुध आपके षष्ठेश व नवमेश है, आपका पारिवारिक जीवन कष्टकारी हो सकता है। व्यापारिक विषयों में भी हानि के योग बन सकते हैं। इसके अलावा यह आपको शत्रुओं के द्वारा धन-हानि की संभावनाएं दे सकता है। यह योग पिता के स्वास्थ्य के पक्ष से भी शुभ नहीं है। सूर्य अष्टमेश गुरु द्वादशेश तथा तृतीयेश हैं।

आपकी कुंडली में षष्ठ भाव में राहु तथा द्वादश भाव में केतु की स्थिति से आपका जीवन संघर्षमय हो सकता है। मगर इन संघर्षों में आपको विजय प्राप्त होगी। पराक्रम से शत्रुओं पर प्रभुत्व बना रहेगा। यह योग आप में मानसिक तनाव व दबाव सहने की क्षमता में वृद्धि कर रहा है।

सूर्य का अष्टम भाव में होना, सन्तान और शिक्षा क्षेत्र को बाधायुक्त बना रहा है। जीवन में अप्रत्याशित घटनाएं, सरकारी कार्यों में बाधाएं, सरकारी क्षेत्रों से पूर्ण सहयोग प्राप्त न होना, हृदय सम्बन्धी लम्बी अवधि के रोग, पुलिस और ससुराल पक्ष से संबंधों में मधुरता में कमी हो सकती है। सूर्य आपकी विद्वता में कमी कर रहा है, वाणी में कटुता का भाव कुछ अंश तक आ सकता है, धन-संचय में कमी, कुटुंब से मतभेद, अल्पकाल के लिए मिथ्याभाषी हो सकते हैं।

शुक्र अष्टम भाव में विवाह के उपरान्त भाग्योन्नति, सामान्य धनी, जीवन साथी द्वारा

धनार्जन करने में सफलता प्राप्त करता है। शुक्र अष्टम भाव में प्रेम सम्बन्धों में बाधाएं, जन्म स्थान से दूर निवास, परस्त्रीरत बना सकता है।

केतु की स्थिति द्वादश भाव में शुभ नहीं मानी गयी है, इसके परिणाम से आप खचीले, चिंतित, प्रवासी, सनकी, चंचल बुद्धि, आपके अधिक व्यय धार्मिक कार्यों में होते हैं, आप इन्द्रियों पर विजय प्राप्ति का प्रयास कर सकते हैं। आपको जीवन लक्ष्य प्राप्ति के लिए जीवन भर संघर्ष करना पड़ सकता है।

इन सभी के फलों में शुभता प्राप्त करने के लिए आपको 1, 5, 6, 8, 9 मुखी रुद्राक्षों का कवच धारण करना चाहिए। यह कवच सफेद धागे में डालकर सोमवार को गंगाजल से शुद्ध कर ॐ नम शिवाय मंत्र के 108 बार जप कर धारण करना चाहिए। तदुपरांत शिवजी को कच्चा दूध चढ़ाए। क्षमतानुसार दान करे। इस प्रकार आपके जीवन में आने वाले कष्टों से छुटकारा मिलेगा एवं विशेष कष्टों में न्यूनता आएगी। कुंडली के सभी ग्रहों को शुभता प्रदान करने के लिए आप शिव कृपा रुद्राक्ष माला जो एक से चौदह मुखी रुद्राक्ष से निर्मित होती है, भी धारण कर सकते हैं। एक से चौदह मुखी रुद्राक्ष माला अद्भुत व चमत्कारी फल प्रदान करती हैं।

उपरोक्त कवच बिना दशा, गोचर विचार के आपको जीवन भर धारण करना चाहिए। क्योंकि यह कवच जन्म लग्न एवं उसमें स्थित ग्रहों के अवगुणों को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक हैं।

स्वास्थ्य - 2026

स्वास्थ्य के लिहाज से वर्ष का पूर्वार्द्ध उत्तम नहीं रहेगा। छठे स्थान का गुरुछोटी-मोटी बीमारियों से स्वास्थ्य प्रभावित कर सकता है। मौसमजनित बीमारियां भी हो सकती हैं। ऐसे में स्वास्थ्य का ख्याल रखना जरूरी होगा।

02 जून के बाद गुरु ग्रह का गोचर शुभ हो रहा है। आपके अंदर रोग प्रतिरोधक शक्ति विकसित होगी। लग्न पर गुरु की दृष्टि होने से मन में अच्छे विचार आएंगे। प्रत्येक कार्य को सकारात्मक रूप से करेंगे।

जनवरी 2026 के लिए फलादेश

इस माह आप अपने स्वास्थ्य को लेकर खास सावधानी बरतें। अन्यथा आपको विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। माह अवधि में आपको कोई गले आदि में फोड़ा या पाचन तंत्र में गिरावट की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। इस प्रकार की किसी भी स्वास्थ्य अनियमितता के प्रति आपको गंभीर रहना होगा और रोगों के प्रति उदासीनता से बचना होगा। इस माह नक्षत्र और ग्रह स्थिति आपके बहुत अनुकूल नहीं हैं। इसलिए इस माह आपको गंभीर रोगों से बचने के लिए आपको रोग होने पर शीघ्र चिकित्सा करानी होगी। आपको किसी भी प्रकार की देरी नहीं करनी होगी। इसके अलावा एक अन्य कारण भी है कि आप अपने फेफड़ों से जुड़ी वेदनाओं को लेकर सावधानी बरतें। इस माह आपको कफ अथवा खांसी की समस्या हो सकती है। प्रारंभित उपचार से स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होने की संभावनाएं बन रही हैं।

फरवरी 2026 के लिए फलादेश

इस माह सूर्य आपको रोगों से मुक्त रखेगा। आपको असाधारण जीवन शक्ति और ऊर्जा प्रदान करेगा। रोगों से लड़ने की शक्ति आपमें अधिक होने से आप रोगों के प्रभाव में शीघ्र नहीं आर्येंगे। रोग ग्रस्त होने पर आपके स्वास्थ्य में तेजी के साथ लाभ होगा। सूर्य शुभता से आपको नेत्रों, अस्थियों, सिर, हृदय, प्राण शक्ति, रक्त तथा पित्त संबंधी आदि रोग प्रभावित नहीं कर पायेंगे। इस माह में आपकी हड्डियां मजबूत रहेंगी तथा स्वास्थ्य सुख बना रहेगा। आंशिक रूप से आपको सिर दर्द की शिकायत हो सकती है। अचानक से बुखार आना तथा शीघ्र क्रोध की स्थिति बन सकती है। स्वास्थ्य में होने वाले विकारों को अनदेखा करने पर छोटे रोग गंभीर रोग में परिवर्तित हो सकते हैं। सावधान रहें।

मार्च 2026 के लिए फलादेश

यह माह आपके स्वास्थ्य के पक्ष से अनुकूल रहेगा। सूर्य शुभता आपको रोग मुक्त रखने में पूरा सहयोग करेगी। आप स्वयं में ऊर्जा और जीवन शक्ति के एक बड़े स्रोत का अनुभव करेंगे। फिर भी आपको अपने पाचन तंत्र, नेत्र रोगों तथा मुंह रोगों से बचाव का ध्यान

रखना चाहिए। स्वास्थ्य की नियमित जांच कराते रहना भी आपके लिए उत्तम रहेगा। वायुप्रद रोग, गठिया और पुराने रोगों से स्वयं का बचाव करना भी उपयोगी सिद्ध हो सकता है। सामान्य सावधानी बना रख आप रोगों को नियंत्रित रख पायेंगे। इसके अतिरिक्त आपको इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि आप अनावश्यक देरी किए बिना, किसी भी बीमारी के प्रभाव में आने पर आपको शीघ्र चिकित्सा उपचार लेनी चाहिए। साथ ही अपने हृदय से संबंधित रोगों की जांच भी आपको बारीकी से कराते रहना चाहिए।

अप्रैल 2026 के लिए फलादेश

इस माह आपको आरोग्यता बनाए रखने के लिए अतिरिक्त ऊर्जा और जीवन शक्ति की आवश्यकता पड़ सकती है। सूर्य की क्षमता स्वास्थ्य समस्याओं से बचाव रखने के लिए पर्याप्त नहीं होगी। आप विशेष रूप से फेफड़ों से संबंधित रोगों के कारण रोगग्रस्त हो सकते हैं। आपको संवेदनशीलता का खतरा हो सकता है। इसके अतिरिक्त आपको सामान्य दुर्बलता और तंत्रिका संबंधी विकार भी हो सकते हैं। इस माह आप अनावश्यक रूप से शारीरिक या मानसिक रूप से तनाव लेने से बचें। अत्यधिक थकावट आपके लिए हानिकारक हो सकती है, इसलिए आपको सभी प्रकार के तंत्रिका तनाव से बचना चाहिए। स्वास्थ्य की जांच कराते समय सूक्ष्मता से जांच कराना आवश्यक है। इस माह की ग्रह स्थिति आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत अनुकूल नहीं है इसलिए इस माह विशेष सावधानी रखें।

मई 2026 के लिए फलादेश

इस माह सूर्य का सुरक्षा कवच आपकी स्वास्थ्य समस्याओं को दूर रखने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। सूर्य द्वारा आपको प्रदत्त रोगों से लड़ने की शक्ति, जीवन शक्ति और सुरक्षा शक्ति आपको जुकाम और पाचन अंगों से संबंधित बीमारियों से मुक्त नहीं रख पायेंगी। इस माह यदि आप किसी रोग से ग्रस्त होते हैं तो स्वस्थ हो जाना एक कठिन और धीमी उबाऊ प्रक्रिया हो सकती है। इस समय में आपको अत्यधिक सावधानी की जरूरत है। इसके अतिरिक्त रोग बढ़ने पर हालात बिगड़ जायेंगे और स्थिति आपके हाथ से निकल जाएगी। सचेत रहना सुरक्षित रहेगा। समय की हानि किये बिना शीघ्रता से चिकित्सा उपचार कराना और अच्छी तरह से देखभाल करने से स्वास्थ्य सुख वापस प्राप्त किया जा सकता है। इस माह के ग्रह योग आपके स्वास्थ्य के लिए अनुकूल नहीं है।

जून 2026 के लिए फलादेश

इस माह स्वास्थ्य वेदनाओं से छुटकाना पाने के लिए सूर्य का सुरक्षात्मक प्रभाव पर्याप्त नहीं होगा। इस माह आपमें रोग प्रतिरोधक क्षमता काफी कम रहेगी। अचानक और गंभीर बीमारियों के लिए आप का स्वास्थ्य संवेदनशील बना हुआ है। यह आपके लिए समस्या उत्पन्न कर सकता है। आपके पीलिया और दिल के गंभीर रोगों को खराब कर सकता है, इसके अतिरिक्त बुखार या सूजन आदि भी सरलता से आपको बीमार कर सकते हैं। अस्वस्थता की स्थिति में अत्यधिक सावधानी रखनी होगी। अन्यथा आपके हालात तेजी से बिगड़ने की

संभावना बन रही हैं। स्वास्थ्य सुधार प्रक्रिया आपके लिए एक धीमी और काफी हद तक कठिन प्रक्रिया हो सकती हैं। इसलिए स्थिति का निराकरण करने के लिए हर प्रकार से एहतियात रखना होगा। इस माह के ग्रह, नक्षत्र और योग आपके रोगों के मामलों का शीघ्रता से निपटारा नहीं कर रहे हैं। सावधानी रखनी हितकारी रहेगी।

जुलाई 2026 के लिए फलादेश

इस महीने सूर्य असाधारण शक्ति और जीवन शक्ति प्रदान कर आपको हर प्रकार की गंभीर वेदनाओं से मुक्त रखेगा। यही कारण है कि आपको कब्ज, पेचिश, पेट से संबंधित आदि बीमारियों से बचाव के लिए व्यायाम करना चाहिए। क्योंकि आपके पीड़ित हो जाने पर स्वास्थ्य प्राप्ति की प्रक्रिया बहुत ही धीमी और थकाऊ हो सकते हैं। इस माह की शुभ ग्रह स्थिति आपको गठिया और पाचन संबंधी रोग, वायु रोग और पुरानी बीमारियों से मुक्त रखेगी। अत्यधिक भोग से दूर रहना आपके लिए इस माह बहुत अच्छा रहेगा।

अगस्त 2026 के लिए फलादेश

इस माह के ग्रह योग काफी हद तक आपके स्वास्थ्य के लिए अनुकूल रहेंगे। सूर्य आपको असाधारण जीवन शक्ति प्रदान करेगा। यह शक्ति आपके चारों ओर सुरक्षा चक्र का कार्य करेगी। दुर्बलता, थकावट और अत्यधिक परिश्रम करने से होने वाले विकारों और तंत्रिका तंत्र के विकार आपको कष्ट दे सकते हैं। इस माह ग्रहों की स्थिति अनुकूल होने के कारण आपको परेशान नहीं करेगी। लेकिन फिर भी आप आप स्वयं रोगों को आमंत्रित न करें। सामान्य सावधानी लें। जिससे आप अच्छे स्वास्थ्य का आनंद ले सकें। अपनी ऊर्जा शक्ति का उचित उपयोग करना इस माह आपके लिए उपयोगी रहेगी।

सितम्बर 2026 के लिए फलादेश

इस माह आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहना होगा। इस माह आपको बवासीर तथा पित्त की पथरी, होने की संभावना बन रही हैं। सूर्य के द्वारा स्वास्थ्य सुरक्षा और जीवन शक्ति की प्रतिकूलता की वजह से आपमें आरोग्य शक्ति की कमी रहेगी। साथ ही ग्रह स्थिति भी इस माह आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी नहीं बनी हुई हैं। इस बात का खतरा बन रहा है कि अस्वस्थ हो जाने पर स्वास्थ्य प्राप्ति आपके लिए धीमा और थकाऊ हो सकता है। किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य हानि के बिना वेदनाओं का ईलाज समय रहते कराना बहुत हितकारी रहेगा। स्वास्थ्य समस्याओं की संभावनाओं को कम करने के लिए स्वास्थ्य के प्रति एहतियात रखनी होगी। कुल मिलाकर यह माह आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति सावधानी रखने का संकेत कर रहा है।

अक्टूबर 2026 के लिए फलादेश

जहां तक आपके स्वास्थ्य का सवाल है यह माह आपके लिए एक अच्छा माह

रहेगा। सूर्य आपको असाधारण सुरक्षा और जीवन शक्ति प्रदान करेगा। छोटी बीमारियों को अनदेखा न करें अन्यथा यह बड़ी हो सकती हैं। स्वयं को इस माह रोग मुक्त रखने के लिए आप छोटी बीमारियों का समय रहते ईलाज करायें अन्यथा आरोग्य लाभ में काफी जटिल समस्या पैदा हो सकती है। शेष अन्य कोई गंभीर रोग होने की कोई संभावना नहीं है।

नवम्बर 2026 के लिए फलादेश

स्वास्थ्य सुख के पक्ष से यह माह आपके लिए एक अच्छा माह है। इस माह में सूर्य आपको अतिरिक्त साधारण सुरक्षा और जीवन शक्ति प्रदान करेगा। यह सुरक्षा और जीवन शक्ति आपके स्वास्थ्य सुख को बढ़ाएगी। परन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि आप अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत न रहें। इसके लिए आप अपना सामान्य स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए पाचन तंत्र तथा वायु से होने वाले रोग के प्रति अतिरिक्त सावधानी बनाए रखें। इसके अलावा किसी भी प्रकार के छोटा सा दुःख होने पर, किसी भी समय हानि के बिना तुरंत ईलाज करायें। अन्यथा आपके लिए स्वस्थ होना जटिल मामला सिद्ध हो सकता है। यह आपके लिए एक धीमी और थकाऊ प्रक्रिया हो सकती है। इसके अलावा इस माह स्वास्थ्य विषयों को लेकर चिंता की कोई बात नहीं है। सरल, सामान्य सावधानियां रखना पर्याप्त होगा।

दिसम्बर 2026 के लिए फलादेश

इस माह आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहना होगा। आपको अत्यधिक परिश्रम करने से बचना होगा। आपको सामान्य दुर्बलता और स्नायु संबंधी विकार हो सकते हैं। स्वास्थ्य से संबंधित विभिन्न प्रकार की परेशानियां आपको इस अवधि में हो सकती हैं। इस माह आपको अपने स्वास्थ्य के विषय में काफी सावधान रहना होगा। अपना दैनिक कार्यक्रम आपको इस प्रकार से निर्धारित करना होगा कि जिसमें आप किसी भी तरह का अनुचित दबाव न लेते हुए विवेकपूर्ण तरीके से अपनी ऊर्जा का सदुपयोग कर पायें। ग्रह स्थिति आपके ईलाज की अवधि का विस्तार कर रही हैं। इसीलिए स्वास्थ्य में किसी भी प्रकार की आंशिक कमी होने पर बिना किसी देरी के चिकित्सक की सलाह और स्वास्थ्य जांच कराते रहना स्वास्थ्य विकारों का निराकरण करेगा। स्वास्थ्य के पक्ष से यह माह बहुत अनुकूल माह नहीं कहा जा सकता है।



FUTUREPOINT
Astro Solutions



स्वास्थ्य - 2027

स्वास्थ्य की दृष्टि से वर्ष का पूर्वार्द्ध सामान्य रहेगा। आपके स्वास्थ्य में उतार-चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी। लग्न स्थान का राहु अचानक आपका स्वास्थ्य प्रभावित कर सकता है। मौसम जनित बीमारियों से भी आप परेशान हो सकते हैं परन्तु लग्न स्थान पर गुरु ग्रह की दृष्टि से आप शीघ्र ही अच्छे हो जाएंगे। अच्छे स्वास्थ्य के लिए आपको खान-पान के साथ साथ अपनी दिनचर्या भी सुव्यवस्थित रखनी चाहिए। सुबह सुबह टहलना भी आपके लिए लाभप्रद रहेगा।

जून के बाद स्वास्थ्य के लिहाज से समय अच्छा नहीं रहेगा। शनि, राहु एवं गुरु ग्रह का गोचर अनुकूल नहीं होने के कारण कोई लम्बी बीमारी होने के संकेत मिल रहे हैं। यदि पहले से किसी बीमारी से पीड़ित हैं तो यह समय आपके लिए ज्यादा मुश्किल भरा हो सकता है। अष्टमस्थ गुरु जल तत्त्वांश में होने कारण आप कफ, पाचन व पेट संबंधित बीमारियों से परेशान हो सकते हैं। इस समय के अंतराल में स्वास्थ्य संबंधित लापरवाही आपके लिए खतरा उत्पन्न कर सकती है। 26 नवम्बर के बाद नैसर्गिक रूप से आपके स्वास्थ्य में सुधार आना शुरू हो जाएगा।

जनवरी 2027 के लिए फलादेश

इस माह के ग्रह, सितारों की स्थिति आपकी स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए शुभ नहीं बनी हुई है इसलिए इस माह आपको स्वास्थ्य को उत्तम बनाए रखने के लिए अतिरिक्त देखभाल करनी होगी। यदि आप किसी भी प्रकार की पुरानी अनिमितताओं से ग्रस्त हैं तो आपको इनकी शिकायतें हो सकती हैं। इसलिए आपको इस अवधि में उचित देखभाल और व्यायाम करना आपके लिए लाभकारी रहेगी। इस स्थिति में आपको जुकाम, खांसी जैसी वेदनाओं में किसी भी प्रकार की ढिलाई नहीं होनी चाहिए। दवा इत्यादि भी समय पर बिना किसी चूक के लेते रहें। इससे स्वास्थ्य सुख बिना हानि के प्राप्त किया जा सकता है। यदि परिस्थितियों पर आप तत्काल ध्यान रखने में विफल होते हैं तो बहुत तेजी के साथ हालात बिगड़ने की संभावना बन रही है आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और ज्वर आदि का समय पर उपचार करायें। इससे आप किसी भी गंभीर समस्या से बच सकते हैं।

फरवरी 2027 के लिए फलादेश

इस माह ग्रहों की स्थिति, योग आपके स्वास्थ्य सुख के लिए अनुकूल बन रही हैं। इससे पूर्व किसी भी प्रकार की पुरानी अनियमितताओं जैसे बुखार, शीघ्र क्रोध आना इत्यादि में इस माह में कमी आएगी। फिर भी आप अचानक से होने वाले रोगों के प्रति सावधान रहें। कोई गंभीर बीमारी होने की संभावना नहीं बन रही है। स्वास्थ्य चिंताओं में कमी करने के लिए आप आवश्यकता पड़ने पर बिना देरी किए समय पर ईलाज करायें। ग्रह स्थिति स्वास्थ्य के पक्ष से शुभ होने के कारण इस अवधि में सरल सामान्य देखभाल से भी आपको बहुत लाभ पहुंच सकता है। विशेष रूप से इस माह आपको सिर से जुड़े विभिन्न रोग होने की आंशिक संभावनाएं बन रही

हैं। बालों में तेजी से गिरावट की स्थिति बन सकती हैं।

मार्च 2027 के लिए फलादेश

ग्रह, नक्षत्र स्थिति के अनुसार स्वास्थ्य संबंधित विषयों के लिए यह एक अच्छा माह रहेगा। इस माह आपको पुरानी रोग पीड़ाएं से राहत का अनुभव होगा। गले के संक्रमण आदि को आपको गंभीरता से लेना होगा। इस विषय में किसी भी प्रकार का विकार होने पर आपको गंभीरता से जांच तथा ईलाज कराना होगा। साथ ही नेत्रों में किसी भी प्रकार का संक्रमण होने पर भी आपको विशेष सावधानी से काम लेना होगा। माह अवधि में आपका पाचन तंत्र, गठिया, वायु रोग तथा पुराने रोग प्रभावी न हो इसके लिए आपको इन रोगों के प्रति सतर्कता बरतनी होगी। सामान्य सावधानियां रखना भी स्वास्थ्य के लिए अनुकूल रहेगा।

अप्रैल 2027 के लिए फलादेश

इस माह के ग्रह, नक्षत्र और योग आपके स्वास्थ्य के लिए अनुकूल फल प्रदायक रहेंगे। इस माह अवधि में आपको किसी भी प्रकार की गंभीर बीमारी प्रभावित नहीं कर पायेगी। अस्थमा और सामान्य कमजोरी जैसी पुरानी बीमारियों से ग्रस्त होने पर आपको अपने स्वास्थ्य को लेकर कुछ सतर्कता अवश्य रखनी होगी। शेष के लिए यह माह गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से मुक्त माह होगा। फिर भी आपको यह स्वास्थ्य सलाह दी जाती है कि आप इस समय में अपने सामर्थ्य से अधिक परिश्रम न करें। अपनी ऊर्जा शक्ति का अनावश्यक रूप से प्रयोग करने के स्थान पर अपनी ऊर्जा को विवेकपूर्ण विषयों में उपयोग करें। अन्यथा अनुकूल स्थिति बदल सकती हैं और गंभीर रोग भी प्रभावी हो सकते हैं। सामान्य रूप इस यह माह स्वास्थ्य को लेकर चिंता करने के लिए नहीं हैं। अतः इस समय में आप स्वास्थ्य अनुकूलता का आनंद लें।

मई 2027 के लिए फलादेश

इस माह की ग्रह स्थिति आपके लिए अनुकूल रहेगी। अतः इस माह आप किसी भी प्रकार की गंभीर बीमारियों से मुक्त रहेंगे। यदि आपको कोई पुरानी बीमारी जैसे- जुकाम, खांसी और दमा रोग आदि अपने प्रभाव में ले सकती हैं। तथा आपके पाचन अंग सरलता से अव्यवस्थित हो सकते हैं। अन्य लोगों को इस माह काफी राहत का अनुभव होगा। स्वास्थ्य सुख बनाए रखने के लिए आप सामान्य व्यायाम क्रियाएं कर सकते हैं। इस माह की ग्रह स्थिति आपको स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही की कारण उत्पन्न रोगों से बचाने के लिए अनुकूल नहीं हैं। हमेशा के लिए स्वस्थ बने रहने के लिए स्वास्थ्य सावधानी बनाए रखें। इस माह आप स्वास्थ्य सावधानी के रूप में सामान्य व्यायाम कर सकते हैं। इससे आप पूरे माह स्वस्थ बने रहने की आशा कर सकते हैं।

जून 2027 के लिए फलादेश

इस माह के दौरान आपका मन और शरीर काफी स्वस्थ और मजबूत रहेगा। स्वयं

की स्वस्थता हेतु आपको अपने छोटे दुःख की भी तत्काल चिकित्सा करानी होगी। दुःख के आरम्भ में ही देखभाल करने से रोग बड़ा नहीं होगा और उसका समय पर समाधान हो जाएगा। समय-समय पर जांच करते रहने से गंभीर बीमारी की संभावना समाप्त होगी। अचानक से होने वाले रोगों पर भी यह उपाय नियंत्रण बनाए रखेगा। परन्तु इस माह नेत्र संक्रमण की संभावना से पूरी तरह से इंकार नहीं किया जा सकता है। सामान्य देखभाल करने से भी आपका स्वास्थ्य सुख बना रहेगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह एक अच्छा माह रहेगा। स्वास्थ्य उपचार से संबंधित चिंता का अन्य कोई कारण नहीं बन रहा है।

जुलाई 2027 के लिए फलादेश

अपने स्वास्थ्य के संदर्भ में आपको इस माह बहुत अधिक सावधान रहना होगा। जिन व्यक्तियों को पाचन तंत्र, वायु रोग, गठिया तथा जीर्ण रोग जैसी पुरानी बीमारियां हैं। उन्हें विशेष रूप से सतर्क रहना होगा। यही कारण है कि आपको अत्यधिक सावधानी बरतनी होगी और उचित देखभाल रखते हुए आवश्यक पड़ने पर उचित उपचार भी लेते रहें। इनमें से किसी भी प्रकार की देरी गंभीर प्रकार की समस्या उत्पन्न कर सकती है। ग्रह नक्षत्र का पूरा सहयोग प्राप्त न होने के कारण ऐसी समस्याएं सामने आ सकती हैं। इसके अलावा इस माह आपका अत्यधिक भोजन करना भी परेशानी खड़ी कर सकता है। सावधानी के साथ संतुलित जीवन शैली का पालन करते हुए, अपने स्वास्थ्य सुख को बनाए रख सकते हैं।

अगस्त 2027 के लिए फलादेश

इस माह की ग्रह, नक्षत्र स्थिति स्वास्थ्य के पक्ष से स्वास्थ्यवर्धक बनी हुई हैं। अल्सर, पीठ और पुरानी अनियमितता की शिकायतों से इस माह आपको राहत मिलना बहुत बड़ा लाभ होगा। अपने स्वास्थ्य के प्रति सतर्कता की विफलता होने पर आप अपने लिए स्वास्थ्य कष्टों को बढ़ा सकती हैं। इसलिए अपने स्वास्थ्य के लिए सदैव सतर्क बने रहें। अपनी स्वास्थ्य सामर्थ्य से अधिक मेहनत करना आप के लिए एक गंभीर समस्या उत्पन्न कर सकता है। इससे आपको बचने की जरूरत है। आप अनावश्यक रूप से मानसिक और भौतिक दोनों प्रकार से दबाव लेने से बचें। इससे आप लक्ष्यों को शीघ्रता से प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा यह माह स्वास्थ्य के मामलों के लिए चिंता का विषय नहीं रहेगा।

सितम्बर 2027 के लिए फलादेश

इस माह के सितारों की स्थिति आपके स्वास्थ्य के पक्ष से बहुत बेहतर नहीं बनी हुई हैं। माह आरम्भ में आपको अपने पुराने रोगों के लिए सतर्क रहना चाहिए। अन्यथा आपको स्वास्थ्य कमियों के कारण दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। जुकाम, खांसी और जीर्ण प्रकार के रोगों का प्रभाव होने पर विशेष सावधानी रखनी होगी। इसके अलावा, बवासीर से पीड़ित लोगों को भी सावधानी बरतनी चाहिए। इस माह सितारों की स्थिति आपके अनुकूल न होने के बावजूद आप एक नियंत्रित जीवन शैली का यापन कर अपने रोगों पर नियंत्रण बनाए रख सकते हैं तथा स्वास्थ्य सुख को भी बनाए रख सकते हैं।

अक्टूबर 2027 के लिए फलादेश

इस माह की ग्रह, नक्षत्र स्थिति आपके स्वास्थ्य के लिए अनुकूल होकर स्वास्थ्य शुभता का आशिर्वाद दे रही हैं। इसके अलावा पुरानी अनियमितता होने का खतरा न होने से आपको काफी राहत का अनुभव होगा। अचानक से होने वाले रोग जैसे बुखार या शीघ्र क्रोध आना जैसी बीमारियों का चिकित्सा उपचार शीघ्र कराना होगा। इससे रोग नियंत्रित रहेंगे और गंभीर बीमारियां जन्म नहीं ले पायेंगी। इस माह का मिला जुला भाग्य आपको लापरवाही न बरतने पर दुर्घटना या हिंसक चोट की संभावना बना रहा है। आवश्यक देखभाल आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकती है।

नवम्बर 2027 के लिए फलादेश

आपको यह सुनिश्चित करना है कि आप अपनी ओर से किसी प्रकार की लापरवाही न करें, स्वास्थ्य अनुकूलता के लिए आपकी तत्परता आवश्यक है। ग्रह एवं नक्षत्रों की शुभता आपके सभी स्वास्थ्य विकारों का समाधान कर रही हैं। आंशिक रूप से पाचन शिकायतें, गठिया, वायु रोग एवं पुराने रोगों का न उभरना आपको राहत देगा। परन्तु इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि आप अपने स्वास्थ्य विकारों को अनदेखा करने लगें। आपको यह सुनिश्चित करना है कि आप सामान्य सावधानी रखें और गंभीर विषयों का ध्यान रखना चाहिए। अपने स्वास्थ्य की किसी भी छोटी सी शिकायत को भी आपको नजर अंदाज नहीं करना है। इससे यह माह आपके लिए शुभ होकर अनुकूल बना रहेगा।

दिसम्बर 2027 के लिए फलादेश

आने वाले माह में आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छे संकेत नहीं बन रहे हैं। लेकिन सख्ती से आवश्यक बचाव का पालन कर, आप काफी हद तक प्रतिकूल परिस्थितियों के प्रभाव को कम करने में सफल रहेंगे। इसके अतिरिक्त आप एहतियात के रूप में अधिक परिश्रम करने से बचे। स्वयं पर अनुचित दबाव न लेते हुए आप सामान्य गतिविधियों के द्वारा अपने आवश्यक कार्यों की सूची बना उनका पालन करना चाहिए। इससे आप स्वास्थ्य के संबंध में होने वाली संभावित हानियों से बच सकते हैं। इस माह में आपमें कुछ घबराहट की स्थिति बन सकती है। आवश्यक योग अभ्यास, सुबह की सैर करने से ग्रहों की स्थिति की प्रतिकूलता को कम कर सकता है। ऐसा करने से आप अपने स्वास्थ्य विकारों से बाहर आ सकते हैं।

स्वास्थ्य - 2028

स्वास्थ्य की दृष्टि से वर्ष का प्रारम्भ अनुकूल नहीं रहेगा। लग्न स्थान का राहु स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा नहीं होता। अपने स्वास्थ्य को लेकर हमेशा सचेत रहना चाहिए क्योंकि राहु अचानक ही शारीरिक परेशानी देते हैं। खान-पान के साथ अपनी दिनचर्या को भी सुधारें।

24 मई के बाद समय और प्रभावित हो रहा है। उस समय स्वास्थ्य पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। योगाभ्यास करना लाभप्रद रहेगा। पारिवारिक परेशानी के कारण दिमागी तनाव न पालें।

जनवरी 2028 के लिए फलादेश

इस माह आपके सितारे काफी उत्साहजनक बने हुए हैं। इसलिए इस अवधि में आपके स्वास्थ्यों से संबंधित मामलों काफी अनुकूल रहेंगे। आपको खांसी, जुकाम और पुरानी शिकायतों से राहत मिलेगी। पुराने रोगों की वापसी न होने से यह राहत अवधि लम्बे समय के लिए रहेगी। इस प्रकार की समस्याओं का भविष्य में न होना भी आपको ओर अधिक राहत देगा। यदि आपको इस से पूर्व लिवर संबंधी किसी भी तरह की परेशानियां रही हैं तो इस समय में ऐसे रोग प्रभावी होकर आपकी चिंताएं बढ़ा सकते हैं। इन रोगों के प्रति एहतियात और सतर्कता रखने से ऐसे रोग शांत रहेंगे। अपने लिवर को स्वस्थ रखने के लिए आप चिकित्सक की सलाह से किसी दवा का प्रयोग भी कर सकते हैं। इस प्रकार निवारक उपाय करने से स्वास्थ्य से संबंधित आपकी सभी चिंताएं का निराकरण होगा।

फरवरी 2028 के लिए फलादेश

आपके स्वास्थ्य के बारे में इस माह की भविष्यवाणी काफी संतोषजनक नहीं हैं। इसलिए इस माह आपको स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहना होगा। शीघ्र होने वाले रोग जैसे अचानक बुखार या सूजन होने पर आपको शीघ्र ईलाज करना हितकारी रहेगा। कुछ सावधानियां रखने से स्वास्थ्य सुख बना रहेगा। स्वास्थ्य अनियमितताओं को अनदेखा करना आपके लिए लाभकारी नहीं रहेगा। रोग के प्रथम लक्षण स्पष्ट होने पर ही चिकित्सा सहायता लेना आपके लिए लाभकारी रहेगा। यह बहुत आवश्यक है कि आप सावधानियों का सख्ती से पालन करना आवश्यक है। यह समय आपके लिए बहुत अच्छा बना रहें आपको यह सुनिश्चित करना है। तथा आपको घटनाओं को समझ कर कठिनाईयों को दूर करना है। यह भी हो सकता है कि यह एक सुरक्षा कवच की तरह से काम करें। इसलिए अतिरिक्त यदि आपको किसी भी प्रकार की लिवर समस्या है तो आपको इसके उपचार के लिए शीघ्र अतिशीघ्र चिकित्सक से संपर्क कर ईलाज कराना और कोई टॉनिक लेना आपके लिए लाभकारी रहेगा।

मार्च 2028 के लिए फलादेश

यह माह आपके लिए एक अनुकूल माह रहेगा क्योंकि इस माह आपको ग्रहों की शुभता का आशिर्वाद प्राप्त हो रहा है। इसलिए यह माह स्वास्थ्य के लिए एक बहुत अच्छा माह है। इस माह आपके स्वास्थ्य को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। फिर भी आपको कुछ सावधानियों का पालन करना होगा। पेट फूलना, वायु रोग, पाचन तंत्र आदि जैसे पुरानी बीमारियाँ के इस माह अवधि में शांत रहने से आपको राहत का अनुभव होगा। इस माह अवधि में सावधानियाँ रखना लाभकारी रहेगा और स्थिति काफी संतोष जनक रहेगी। इसके अतिरिक्त गले में खराश आदि का आपको अतिरिक्त ध्यान देना होगा। इस तरह के रोग के आशिक लक्षण प्रकट होने पर रोग की सूक्ष्म जांच करना हितकारी रहेगा। हृदय रोगों के लक्षण होने की संभावना बन रही है। इसके अलावा इस माह विशेष चिंता की कोई बात नहीं है। सावधानी बरतने से स्वास्थ्य सुख बना रहेगा।

अप्रैल 2028 के लिए फलादेश

इस माह ग्रह, नक्षत्र योग बहुत शुभ नहीं बने हुए हैं। इसलिए इस अवधि में आपको निरोगी बने रहने के लिए अतिरिक्त ध्यान देना पड़ सकता है। स्वास्थ्य अनियमितताओं को किसी प्रकार से अनदेखा न करना आपके स्वास्थ्य सुख को बढ़ाएगा। सबसे पहले आप अपने सामर्थ्य से अधिक परिश्रम करने से बचें। इससे आप में शारीरिक दुर्बलता आ सकती है। साथ ही स्नायु संबंधी विकार भी आपको दिक्कत दे सकते हैं। इस माह से जुड़ी सभी समस्याओं का स्रोत अत्यधिक परिश्रम आ रहा है। इसलिए आपको इस विषय पर विशेष नियंत्रण रखना होगा। कार्य भार का वितरण करने से स्वास्थ्य विकारों पर नियंत्रण बना रहेगा। समय बहुत अच्छा नहीं है इसलिए ख्याल रखें।

मई 2028 के लिए फलादेश

इस माह के दौरान आपको किसी भी प्रकार की प्रमुख स्वास्थ्य समस्या नहीं होगी। परन्तु इसका मतलब यह नहीं है कि आप सभी सावधानियों को एक तरफ कर दें। इस माह अवधि में अत्यधिक संवेदनशील व्यक्तियों को पाचन अंगों की परेशानियाँ निष्क्रिय रहने से आपको इन परेशानियों से कुछ राहत मिल जाएगी। लेकिन उपचार और आहार दोनों मामलों में सामान्य सावधानियाँ जारी रखनी होगी। छाती क्षेत्र में किसी भी प्रकार के संक्रमणों के प्रति आपको खास ध्यान रखना होगा। इस विषय में किसी भी प्रकार के लक्षण उभरने पर तुरंत, बिना किसी देरी के उपचार कराना होगा। इन छोटी सी सतर्कताओं से आप इस माह अपने स्वास्थ्य शुभता को बनाए रख सकते हैं। इससे आपका स्वास्थ्य पूरे माह अच्छा रहना चाहिए।

जून 2028 के लिए फलादेश

आपके स्वास्थ्य की शुभता बनाए रखने के लिए इस माह की ग्रह स्थिति का शुभ सहयोग आपको प्राप्त हो रहा है। इसलिए इस माह स्वास्थ्य के लिए चिंतित रहने के कारण कम ही बने हुए हैं। फिर भी आपको अचानक बुखार या सूजन आदि के ईलाज की आवश्यकता पड़ सकती है। जिसमें आपको उचित देखभाल और व्यायाम करना लाभकारी रहेगा। तत्काल उपचार



FUTUREPOINT
Astro Solutions



से भी लाभ होगा। इस संबंध में उपेक्षा हितकारी नहीं रहेगी। अन्यथा रोग बिगड़ने पर आपके स्वास्थ्य की स्थिति गंभीर हो सकती हैं। इससे पूर्व किसी भी प्रकार का लिवर रोग हो तो इस रोग से बचाव का आपको ध्यान रखना होगा। बचाव के रूप में आप लिवर रोगों के लिए किसी टॉनिक का उपयोग कर सकते हैं। अपना ख्याल रखना आपकी स्वास्थ्य चिंताओं में कमी करेगा।

जुलाई 2028 के लिए फलादेश

ग्रह सितारों इस माह आपके लिए बहुत शुभ योग में न होने के कारण आपको अपना शुभ आशिर्वाद प्रदान नहीं कर हैं। इसलिए आपको अपना ख्याल रखना होगा। गठिया, वायु रोग, पेट फूलना, पाचन तंत्र और पुरानी बीमारियों में गड़बड़ी हो सकती हैं। स्वयं को स्वस्थ रखने के लिए आपको प्रयास बढ़ाने होंगे। आपको अपनी अधिक देखभाल, उपचार और आहार का ख्याल रखना होगा। इससे पूर्व यदि आपको लिवर संबंधित रोग रहे हैं तो इस समय में इन रोगों की वापसी हो सकती हैं। इस संबंध में घटने वाली घटनाएं आपके लिए बहुत अनुकूल नहीं रहेंगी। अपने लिवर रोगों की रोकथाम के लिए आप कोई उपयुक्त दवा का सेवन कर सकते हैं। सावधानी रखना, रोगों को गंभीर होने से बचाएगा।

अगस्त 2028 के लिए फलादेश

आपकी स्वास्थ्य अनुकूलता के पक्ष से यह माह प्रतिकूल बना हुआ है। कुछ विशेष सावधानियां रखना हितकारी रहेगा। रोगों का समय पर ईलाज न कराने से रोग गंभीर रूप ले सकते हैं। माह अवधि में अत्यधिक परिश्रम करने की वजह से आप सामान्य दुर्बलता से पीड़ित हो सकते हैं। आपको अनावश्यक रूप से अपनी शक्ति का प्रयोग करने से बचना चाहिए। इस स्थिति में सुधार करने के लिए आपको अपनी दैनिक गतिविधियों को पुनःनिर्धारित करना होगा। इस माह में पुराने रोग आपको फिर से परेशान कर सकते हैं। लिवर आदि रोगों की रोकथाम के लिए आपको एहतियात के रूप में कोई दवा आदि का प्रयोग कर सकते हैं। पुरानी लिवर परेशानियों को नियंत्रित रखना होगा। परहेज के रूप में आप लिवर के लिए एक अच्छा टॉनिक ले सकते हैं।

सितम्बर 2028 के लिए फलादेश

माह अवधि में सितारों का योग आपके स्वास्थ्य को आशिर्वाद दे रहा है। बिना तनाव के आप इस माह की शुभता का आनंद दे सकते हैं। यहां तक कि यदि आपको बवासीर संबंधित शिकायत है तो इस संबंध में आपको सामान्य सावधानियों का पालन करना होगा। यह माह आपको बीमारियों से राहत दे रहा है। स्वास्थ्य के लिए यह माह एक अनुकूल माह रहेगा। आपको लिवर रोगों से बचाव के उपाय करने चाहिए। इन रोगों से बचने के लिए एक अच्छे टॉनिक का उपयोग करना आपके लिए काफी पर्याप्त रहेगा। कुछ सावधानियां रख आप अपने स्वास्थ्य चिंताओं से मुक्त रह सकते हैं।

अक्टूबर 2028 के लिए फलादेश

इस माह में आपके ग्रह, सितारें शुभ योग बना रहे हैं। जिसके कारण इस माह में स्वास्थ्य को लेकर गंभीर चिंता करने के अवसर कम ही बनेंगे। इसके अतिरिक्त बुखार, सूजन, अचानक रोग ग्रस्त होने से परेशानियों से आपको राहत महसूस होगी। किसी भी कारण से रोग ग्रस्त होते हैं तो शीघ्र उपचार कराना आपकी राहत को सुनिश्चित करेगा। आपको अपने लिवर रोगों को नियंत्रण में रखने के लिए सामान्य सावधानियां रखनी होंगी। इसके लिए किसी टॉनिक का उपयोग किया जा सकता है। इस प्रकार कुछ सावधानियों का पालन कर आप स्वस्थ रह सकते हैं। इस माह चिंता करने का अन्य कोई कारण नहीं बन रहा है।

नवम्बर 2028 के लिए फलादेश

स्वास्थ्य विषयों के लिए यह माह काफी लाभकारी रहेगा, इस माह अवधि में आपको अपने स्वास्थ्य की अधिक चिंता नहीं करनी पड़ेगी। यहां तक की गठिया, पाचन तंत्र, वायु रोग और पेट फूलना आदि पुरानी बीमारियों से आपको राहत का अनुभव होगा। किसी रोग के प्रभावी होने पर आपको रोग मुक्त होने में अधिक देखभाल नहीं करनी होगी। इस माह में आपको स्वास्थ्य परेशानियों से राहत मिलेगी। यदि आपको इससे पूर्व ही लिवर संबंधी रोग परेशान करते रहते हैं तो इस अवधि में आप इसके उपचार के लिए कोई उपयुक्त दवा ले सकते हैं। बचाव करने से रोग शीघ्र प्रभावी नहीं होंगे।

दिसम्बर 2028 के लिए फलादेश

इस माह अवधि में ग्रहों का संयोजन आपके स्वास्थ्य सुख को शुभ कर आपको प्रोत्साहित कर रहा है। इस माह में आप सामान्य सतर्कताओं का पालन कर अपने स्वास्थ्य को बनाए रखेंगे। माह अवधि में आप अपने सामर्थ्य से अधिक मेहनत कार्य न करें। यह आपके स्वास्थ्य में कमी करेगा और आपके लिए बहुत बुरा रहेगा। अपनी ऊर्जा शक्ति का अनावश्यक व्यय बचाने के लिए आप स्फूर्ति और स्वस्थता के लिए खेल गतिविधियों को समय दे सकते हैं। कार्यभार की अधिकता से बचने के लिए आप अपनी गतिविधियों की एक सूची तैयार कर कार्य को दिनभर के समय में बांट सकते हैं परन्तु आपको ध्यान रखना है कि आप अपने कार्यक्रम का कठोरता से पालन करें। इस विषय में आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। इसके अतिरिक्त सितारे इस माह आपको ओर कोई परेशानी नहीं देंगे।

स्वास्थ्य - 2029

स्वास्थ्य की दृष्टि से वर्ष का प्रारम्भ उत्तम नहीं रहेगा। स्वास्थ्य अनुकूल नहीं रहने के कारण मानसिक परेशानी बनी रहेगी। 29 मार्च के बाद गुरु ग्रह की दृष्टि लग्न पर होगी जिसके प्रभाव से शारीरिक आरोग्यता की प्राप्ति व कार्य क्षमताओं में वृद्धि के प्रबल संकेत हैं। मानसिक शांति, प्रसन्नता व सकारात्मक सोच में वृद्धि होगी जिससे आपका स्वास्थ्य अनुकूल बना रहेगा।

25 अगस्त से अचानक आपका स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है या मौसमजनित बीमारियों से आप परेशान हो सकते हैं। सुबह सूर्योदय के पहले उठकर घूमना या व्यायाम करना आपके स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद रहेगा।

जनवरी 2029 के लिए फलादेश

माह अवधि में ग्रहों एवं सितारों की स्थिति आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत उत्साहजनक नहीं बन रही है। यह मुश्किल समय है सतर्कता बनाए रखें। हाथ और पैर कुछ ठंडे हो आपके स्वास्थ्य सुख में कमी कर सकते हैं। इसके अलावा आपमें सामान्य घबराहट की स्थिति बन सकती है। रोग सामान्य से अधिक बढ़े इससे बेहतर है कि इनका समय रहते निराकरण किया जाए। ग्रहों की प्रतिकूलता आपसे अतिरिक्त देखभाल और ध्यान की मांग कर रही है। इस अवधि में आपके स्वभाव में उदासी अधिक हो सकती है। इसके अलावा इस समय में अशुद्ध या बासी भोजन करने से परहेज करना होगा। सावधानी बरतें। भोजन में विषाक्तता निश्चित रूप से स्वास्थ्य कमी का कारण बन सकता है। सतर्क बने रहें।

फरवरी 2029 के लिए फलादेश

स्वास्थ्य अनुकूलता के लिए यह माह सामान्य माह सिद्ध हो रहा है। सितारों की स्थिति आपको सामान्य शुभता दे रही है। माह अवधि में आपके स्वभाव की विनम्रता आंशिक रूप से प्रभावित हो सकती है। आप इस माह में अचानक बुखार या सूजन आदि बीमारियों से परेशान हो सकते हैं। यदि ये रोग आपको पहले भी परेशान करते रहें हैं तो आपको इनके प्रति खास सावधानी रखनी होगी। स्वास्थ्य हानि न हो इसलिए सतर्कता बनाए रखना सही रहेगा। इसके अलावा सिर की कुछ बीमारी की संभावना बन रही है। इनका तुरंत ईलाज किया जाना लाभकारी रहेगा। इस माह की अवधि अनुकूल नहीं है इसलिए आपको अपना ख्याल रखना चाहिए।

मार्च 2029 के लिए फलादेश

इस माह अवधि के सितारों का संयोजन आपके स्वास्थ्य सुख को सुनिश्चित कर रहा है। माह अवधि में सतर्कता और सावधानी बनाए रखना आपके लिए हितकारी रहेगा। पाचन तंत्र, गठिया जैसी अनियमितताओं में गड़बड़ी होने से आपकी स्वास्थ्य परेशानियां बढ़ सकती हैं।

माह अवधि में आपको बहुत अधिक देखभाल और ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। गले के रोग आपको स्वास्थ्य परेशानियां दे सकते हैं। यदि आपको हृदय से संबंधित कोई रोग या लक्षण दिखाई देता है तो आपको इनकी जटिलताओं की बारीकी से जांच करानी चाहिए। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना आपको स्वस्थ रहने में मदद करेगा।

अप्रैल 2029 के लिए फलादेश

सितारों का संयोजन आपके स्वास्थ्य के लिए इस माह अनुकूल नहीं बन रहा है। इस माह में आपको ज्यादा ध्यान और देखभाल की जरूरत पड़ सकती है। साथ ही इस माह में अत्यधिक परिश्रम करना आपको थकावट का कारण बन आपको दुर्बलता की स्थिति दे सकता है। यहां तक की आपके तंत्रिका विकार भी पीड़ित होने की संभावना बन रही है। यह स्थिति न बने इसके लिए सावधान रहना चाहिए। कार्यों की अधिकता से अनावश्यक रूप से आपके शारीरिक तंत्र पर पड़ने वाले दबाव को कम करना होगा। तथा छाती में किसी भी प्रकार के संक्रमण का आपको तुरंत ईलाज करना होगा।

मई 2029 के लिए फलादेश

इस माह में ग्रह, सितारों का संयोजन आपके स्वास्थ्य के लिए काफी अनुकूल है। अपच जैसे रोगों से ग्रस्त लोगों को माह अवधि में इन रोगों से राहत मिलेगी। इसके अतिरिक्त पाचन अंगों के शीघ्र बिगड़ जाने से परेशान व्यक्तियों को भी इस समय में सुखद अनुभव होगा। फिर भी आप इन रोगों के प्रति नियमित रूप से आवश्यक सावधानी बनाए रखें। इसके अतिरिक्त खांसी, अस्थमा जैसी पुरानी शिकायतों के प्रति भी आपको सावधानी रखनी होगी। भोजन में विषाक्तता से पीड़ित हो सकते हैं। कुछ सामान्य सावधानियों का पालन करें और अशुद्ध खाना खाने से बचें। सतर्कता बनाए रखने से यह माह आपके लिए काफी उत्साहजनक माह रहेगा।

जून 2029 के लिए फलादेश

यह माह स्वास्थ्य की दृष्टि से आपके लिए काफी फायदेमंद माह सिद्ध होगा। अचानक से बुखार और शीघ्र क्रोध की स्थिति बनने जैसे रोगों के शांत रहने से आपको पर्याप्त राहत मिलेगी। माह अवधि में आपका स्वभाव कभी गंभीर कभी प्रसन्नचित्त रहेंगे। नेत्र संक्रमणों के प्रभावी होने की आशंका बन रही है। लेकिन इस संबंध में अधिक परेशान होने की संभावना नहीं बन रही है क्योंकि आपको जल्द ही इन रोगों से राहत मिल जाएगी। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार का अशुद्ध भोजन लेकर खाने में सावधानी बरतना एक अच्छा व उपाय रहेगा। विषाक्त भोजन आपके लिए परेशानी खड़ी कर सकता है। कुल मिलाकर इस माह में आपको कोई गंभीर स्वास्थ्य समस्या के न होने से यह माह आपके लिए लाभकारी माह सिद्ध होगा।

जुलाई 2029 के लिए फलादेश

सितारों की शुभता आपके स्वास्थ्य शुभता के लिए बहुत उदार नहीं बनी हुई है। इसलिए इस माह में आपको कुछ स्वास्थ्य परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। पेट फूलना, पाचन तंत्र, वायु रोगों के रोग तथा पुरानी बीमारियों में फिर से गड़बड़ी हो सकती है। आहार और उपचार दोनों पर निगरानी रखना आपके लिए आवश्यक रहेगा। आहार पर नियंत्रण रखने से आप आसानी से अपने रोगों पर नियंत्रण बनाए रख सकते हैं। अशुद्ध खाद्य पदार्थों का सेवन करने से बचना भी आपके लिए उत्तम रहेगा। सावधानी के साथ-साथ व्यायाम करने से भी स्थिति में सुधार होगा। यह समय आपके लिए बहुत अनुकूल नहीं है इसलिए अधिक से अधिक ध्यान देना लाभकारी रहेगा।

अगस्त 2029 के लिए फलादेश

माह अवधि की ग्रह स्थिति आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत शुभ नहीं बन रही है। अतः माह अवधि में निरोगी रहने के लिए आपको सामान्य से अधिक प्रयास करने पड़ सकते हैं। आपके स्वभाव में विनम्रता की कमी हो सकती है। रोगों के गंभीर रूप धारण करने का खतरा अधिक से अधिक बना हुआ है। इसके अलावा अधिक परिश्रम और थकावट की वजह से गंभीर संकट उत्पन्न हो सकते हैं। यह आपमें दुर्बलता का कारण भी बन सकता है। सावधानी न रखने पर यह रोग एक गंभीर समस्या बन सकता है। परिश्रम की अधिकता आपके शारीरिक तंत्र पर अनुचित दबाव डाल रहा है। इससे बचाव करने के लिए आप अपनी दैनिक गतिविधियों का एक कार्यक्रम तैयार करें। इसके अलावा अशुद्ध और बासी भोजन सेवन करना आपके स्वास्थ्य में कमी कर सकता है। विषाक्त भोजन का सेवन करने से भी आपके स्वास्थ्य सुख में विकार आ सकते हैं। भोजन सेवन करते समय सावधानी रखनी होगी।

सितम्बर 2029 के लिए फलादेश

इस माह के ग्रह एवं सितारों आपके स्वास्थ्य को शुभ आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। माह अवधि में स्वास्थ्य शुभता सुनिश्चित हो रही हैं। इसलिए आपके द्वारा किसी भी प्रकार के गंभीर स्वास्थ्य संकट का सामना करने की संभावना बहुत कम बन रही हैं। इसके अतिरिक्त इस अवधि में आपमें ऊर्जा शक्ति अनुकूल रहेगी और आप प्रसन्नचित्त बने रहेंगे। पाचन तंत्र के सुचारु रूप से कार्य करने और इसमें कार्यात्मक विकार उत्पन्न न होने से आपको राहत प्राप्त होगी। फिर भी आप थोड़ी सावधानियां बनाए रखें। भोजन में विषाक्तता होने से आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। अतः आप किसी भी अशुद्ध या बासी भोजन का सेवन न करें और सावधान रहें। अतिरिक्त देखभाल करना आपको आरोग्यता देगा। इसके अलावा चिंता की कोई बात नहीं है। कुल मिलाकर यह माह आपकी स्वास्थ्य संभावनाओं को प्रोत्साहित कर रहा है।

अक्टूबर 2029 के लिए फलादेश

ग्रह एवं सितारों का योग आपके स्वास्थ्य को सुखमय बनाए रखने के लिए बहुत अनुकूल नहीं बन रहा है। स्वास्थ्य सुख के उत्तम बने रहने की संभावनाओं में कमी हो रही है। माह अवधि में बुखार, सूजन, अचानक से गंभीर बीमारी आपके लिए स्वास्थ्य परेशानी उत्पन्न

कर सकते हैं। इस तरह की वेदनाओं में गड़बड़ी होनी के प्रबल योग बन रहे हैं। गठिया, जुकाम जैसे पुराने विकारों का ईलाज आपको अधिक ध्यान से कराना रहेगा। इस विषय में किसी भी तरह की कोई लापरवाही आपके लिए हितकारी नहीं रहेगी। इसके अलावा आपको इस माह अवधि में दुर्घटना या हिंसक चोट लगने की संभावना बन रही है। यह माह आपके लिए अनुकूल नहीं है, इसलिए अपना विशेष ख्याल रखना होगा।

नवम्बर 2029 के लिए फलादेश

आपकी स्वास्थ्य संभावनाओं के पक्ष से इस माह की ग्रह स्थिति बहुत उत्साहजनक नहीं बन रही है। एहतियात के लिए सावधानी रखना हितकारी रहेगा। पुरानी गठिया, पाचन तंत्र, पेट फूलना, वायु की अधिकता के कारण अनियमितताओं के कारण सामान्य से अधिक स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है। शीघ्र उपचार करने और ध्यान रखने पर भी आपको इन वेदनाओं के ईलाज पर अधिक धन व्यय करना पड़ सकता है। इसके अतिरिक्त इस माह अवधि में आपको विषाक्त भोजन से बचाव करना होगा। अशुद्ध या बासी भोजन का सेवन करते समय बहुत सावधान रहने की जरूरत होगी। किसी भी प्रकार की लापरवाही का परिणाम आपके स्वास्थ्य सुख में कमी के रूप में सामने आ सकता है। सावधानी रखना हितकारी रहेगा।

दिसम्बर 2029 के लिए फलादेश

माह अवधि में सितारें आपके लिए बहुत अनुकूल स्थिति नहीं बना रहे हैं। इससे आपके स्वास्थ्य सुख की स्थिति बहुत उत्साहवर्धक नहीं बनी हुई है। नर्वस तंत्र के विकारों का शीघ्र उपचार न कराना इन जटिलताओं को गंभीर बना सकता है। यहां तक की इन दुर्बलताओं के कारण कमजोरी की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इस माह में स्वास्थ्य कमी का एकमात्र कारण अधिक परिश्रम और थकावट हो सकता है। अपने शारीरिक सामर्थ्य से अधिक कार्य करना आपके शारीरिक तंत्र पर अनुचित दबाव डाल रहा है। इसमें कमी करने के उपाय आपको करने होंगे। कार्या और गतिविधियों का पूर्वनियोजन करने से आप इस समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। केवल एहतियात रखना ही आपको इन मुसीबतों से बचा सकता है। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार का अशुद्ध भोजन या बासी भोजन लेते समय आपको सावधानी का प्रयोग करना चाहिए। अन्यथा भोजन में विषाक्तता आ सकती है। यह अवधि प्रतिकूल बनी हुई है इसलिए ख्याल रखना होगा।



FUTUREPOINT
Astro Solutions



स्वास्थ्य - 2030

प्रारम्भ के तीन माह छोड़ दिए जाएं तो आपका स्वास्थ्य काफी बेहतर होगा। आप सेहतमंद और सक्रिय रहेंगे। आप दृढ़ निश्चयी और सशक्त इच्छाशक्ति वाले व्यक्ति हैं जिसके कारण आप स्वस्थ रहेंगे। आपको कोई बड़ी स्वास्थ्य संबंधी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा।

17 अप्रैल के बाद शनि ग्रह का गोचर प्रतिकूल होने के कारण आपके लिए समय कुछ तनावपूर्ण हो सकता है। अपनी चिंता और व्याकुलता विजय पाने के लिए आप ध्यान या योग का सहारा ले सकते हैं। 23 सितम्बर के बाद गुरु का गोचर ईर्ष्या, प्रतिशोध और विश्वासघात जैसी बुरी भावनाओं को खत्म कर आपके अन्दर सकारात्मकता प्रदान करेगा जिससे आपको शारीरिक आरोग्यता एवं मानसिक शान्ति प्राप्त होगी।

जनवरी 2030 के लिए फलादेश

इस माह आपके साथ आपके भाग्य का समर्थन नहीं है। इसलिए इस माह आपको अपना ध्यान विशेष रूप से रखना होगा। इस माह आपके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव शीघ्र पड़ सकता है। अप्रिय लोगों से आपको इस माह दूरी बनाकर रहनी होगी। स्वास्थ्य की अनुकूलता बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि आप सकारात्मक प्रभावयुक्त वातावरण में रहें। आपके स्वास्थ्य पर आपके आसपास के लोगों का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। नापसन्द लोगों और स्थानों से दूरी आपके स्वास्थ्य सुख को बढ़ायेगी। यदि आप इस प्रकार से कार्य करते हैं तो आप अपनी समस्याओं का एक बड़ा हिस्सा हल कर सकते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह समय काफी हद तक मुश्किल समय है। इस समय में आपको अतिरिक्त देखभाल की जरूरत है। सामान्य सावधानियां रखने से आप स्वयं को स्वस्थ बनाए रखने में सफल रहेंगे।

फरवरी 2030 के लिए फलादेश

इस माह के सितारें आपके लिए बहुत अनुकूल स्थिति नहीं बना रहे हैं। अपने स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए सावधानियां का पालन सख्ती से करना आपके स्वास्थ्य सुख को बेहतर बनाए रखेगा। इस माह आपका स्वास्थ्य आपके पर्यावरण पर निर्भर करेगा। आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि आपके आसपास के परिवेश का आपके स्वास्थ्य पर सीधा असर पड़ेगा। उत्तम परिवेश में रहना आपके स्वास्थ्य सुख को भी उत्तम बनाए रखेगा। आंशिक रूप से मानसिक परेशानी के संकेत मिल रहे हैं। सौहार्दपूर्ण संगति आपके स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखेगी। आपको अचानक से बुखार या सूजन आदि हो सकता है। घसे में शीघ्र ईलाज कराना आपको गंभीर रोगों से बचाएगा। इन सावधानियों का पालन करने से आप दीर्घकाल तक स्वस्थ बने रहेंगे।

मार्च 2030 के लिए फलादेश

इस माह के सितारों आपको अच्छे स्वास्थ्य के लिए शुभ आशिर्वाद दे रहे हैं। इसलिए इस माह में आपको अपने स्वास्थ्य के लिए किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी होगी। यहां तक कि गठिया, वायु रोग, पेट फूलना, पाचन तंत्र और पुराने रोगों के निष्प्रभावी रहने से आपको काफी राहत का अनुभव होगा। इस माह की ग्रह स्थिति आपके स्वास्थ्य के लिए अनुकूल रहेगी। लेकिन फिर भी ध्यान न रखने पर अनुकूल स्थिति भी प्रतिकूल सिद्ध हो सकती हैं। स्वास्थ्य के लिए विपरीत माहौल में रहने से आप रोगों के प्रभाव में आ सकते हैं। इसलिए संक्रमित स्थानों से दूर रहना आपके लिए हितकारी रहेगा। किसी भी तरह का संक्रमण होने पर तुरंत ईलाज कराना लाभदायक रहेगा।

अप्रैल 2030 के लिए फलादेश

जहां तक आपके स्वास्थ्य का प्रश्न है यह माह आपके स्वास्थ्य के लिए शुभफलदायक रहेगा। अपने स्वास्थ्य को लेकर इस माह आपको अधिक चिंता नहीं करनी होगी। फिर भी इस माह आपको अपने स्वास्थ्य की अनुकूलता का ध्यान रखना होगा। अपने स्वास्थ्य को निरंतर अच्छा रखने के लिए कुछ सावधानियां रखना आपके लिए लाभकारी रहेगा। इस माह सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको इस माह अत्यधिक मेहनत करने से बचना चाहिए। इसके लिए आपको अपने कार्यों के पूर्व में ही एक रूपरेखा या समय सारणी तैयार करनी होगी। इस समय-सारणी का कठोरता से पालन करने से स्वास्थ्य सुख बना रहेगा। किसी भी तरह के संक्रमण के प्रति आपको सावधान रहना होगा। इससे आप स्वास्थ्य दिक्कतों का निवारण कर सकते हैं। इसमें किसी भी तरह की विफलता आपके स्वास्थ्य रोगों को आमंत्रित कर सकती हैं। इसके अलावा आपको छाती के रोगों के संक्रमण के प्रति भी सावधान रहना होगा।

मई 2030 के लिए फलादेश

इस माह के ग्रहों की स्थिति आपके स्वास्थ्य मामलों का समाधान कर रही हैं। इसलिए इस माह में आप स्वस्थ और कम से कम बीमार रहेंगे। फिर भी यदि आपके पाचन अंग काफी आसानी से अव्यवस्थित हो जाते हैं तो इस माह में आपको इन रोगों से राहत का अनुभव होगा। वायु रोगों के प्रति सावधानी बनाए रखना हितकारी रहेगा। तथा रोग अनियमितताओं के प्रति सावधान रहना होगा। अपने स्वास्थ्य को अनुकूल रखने के लिए आपको उपचार से बचने के लिए सावधानियों का ध्यान रखना होगा। खांसी, जुकाम और छाती से संबंधित किसी भी संक्रमण से बचने के लिए आपको एहतियात से काम लेना होगा। रोग ग्रस्त होने पर शीघ्र दवा लेने से स्थिति गंभीर नहीं होगी।

जून 2030 के लिए फलादेश

इस माह के सितारों का सुरक्षा कवच आपके रोगों को दूर रखेगा। इस माह के अधिकतम समय में आप स्वयं को स्वस्थ और चुस्त रखेंगी। शीघ्र प्रभावित होने वाले रोग जैसे बुखार आदि के प्रति आपको विशेष सावधानी बरतनी होगी। आपको स्वास्थ्य में किसी भी प्रकार की अनियमितता को अनदेखा करने से बचना होगा। ग्रहों की स्थिति आपके स्वास्थ्य को शुभ

बनाए रखने के लिए शुभ बनी हुई हैं। अनहोनी होने का कोई संकेत नहीं बन रहा है। लेकिन फिर भी आप अप्रिय स्थानों और लोगों से दूर रहें। इस विषय में आपको सावधानी रखनी होगी। अपना ध्यान रखने से आपका स्वास्थ्य उत्तम बना रहेगा।

जुलाई 2030 के लिए फलादेश

इस माह अवधि के ग्रहों की स्थिति और योग आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छे नहीं बने हुए हैं। इस माह अपना स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए आपको सावधानी रखनी होगी। कब्ज, पाचन तंत्र, वायु रोग और आंत से जुड़ी पुरानी बीमारियों की गड़बड़ी आपको परेशान कर सकती हैं। उचित दवा और आहार लेते रहन आपको स्वास्थ्य सुख प्रदान करेगा। छोटी छोटी सी अतिरिक्त देखभाल का ध्यान रखने से आप गंभीर परेशानियों से मुक्त रह सकते हैं। अप्रिय स्थानों और लोगों से दूरी रखने का आपके स्वास्थ्य पर सीधा असर पड़ेगा। आपके पासपास के लोगों के स्वभाव की आपके स्वास्थ्य सुख में महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी।

अगस्त 2030 के लिए फलादेश

आपके स्वास्थ्य सुख को बनाए रखने के लिए आपको ग्रह, सितारों का शुभ आशीर्वाद प्राप्त नहीं हो रहा है। यह ग्रह स्थिति आपके स्वास्थ्य में कमी कर रही हैं। इस माह अधिक परिश्रम की वजह से आप सामान्य शारीरिक दुर्बलता से पीड़ित हो सकते हैं। ग्रह योगों से ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि आपको तंत्रिका विकार पीड़ित हो सकते हैं। आपको अपनी सामाज्य शक्ति के अनुसार ही परिश्रम करना होगा। इसका आपके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। स्वस्थता को बनाए रखने के लिए आप अप्रिय स्थानों और लोगों से दूर रहें। आपकी स्वास्थ्य स्थिति का निर्धारण करने में आपका सामान्य परिवेश भी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। इन सामान्य सावधानियों को अपनाकर आप गंभीर स्वास्थ्य संकटों से बच सकते हैं।

सितम्बर 2030 के लिए फलादेश

इस माह में बन रही ग्रह संयोजन की अनुकूलता आपको चिंतित होने के बहुत कम कारण दे रही है। आंशिक कारणों को छोड़ दे तो इस माह आपका स्वास्थ्य उत्तम बना हुआ है। आपको यह ध्यान रखना होगा कि आपके आप पास के पर्यावरण की प्रकृति आपके स्वास्थ्य सुख में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। इस माह में सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आपको अप्रिय स्थानों और लोगों से दूर रहना होगा। यह आपके भाग्य की शुभता में सहायता करेगा। अपने स्वास्थ्य को लेकर सामान्य सावधानियां का प्रयोग आपके स्वास्थ्य हित में रहेगा। उत्तम स्वास्थ्य और सुखद वातावरण आपको विभिन्न प्रकार के प्रतिकूल स्वभाव के लोगों से बचाएगा। इसके अलावा इस माह में आपको अपनी नेतृत्व शक्ति को सहज बनाना होगा। शरीर के गुप्त अंगों में परेशानियां हो सकती हैं। स्वास्थ्य की उत्तमता आपके जीवन को सुखद बनाए रखेगी।

अक्टूबर 2030 के लिए फलादेश

इस माह के ग्रहों एवं सितारों की शुभता आपको उत्तम स्वास्थ्य का आशीर्वाद प्रदान कर आपके स्वास्थ्य विकारों का निराकरण कर रही हैं। आपके स्वास्थ्य की स्थिति का निर्धारण करने और उसे सुखद बनाए रखने में आपके पास-पास के वातावरण के महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। इसलिए इस विषय में आपको ध्यान रखना चाहिए। यह आपके स्वास्थ्य के लिए उत्तम बना हुआ है फिर भी इस माह कुछ अनहोनी के संकेत बन रहे हैं। एहतियात के रूप में अप्रिय लोगों, अप्रिय स्थानों से दूर रहना आपके स्वास्थ्य के लिए हितकारी रहेगा। आपके स्वास्थ्य को उत्तम बनाए रखने में यह विशेष भूमिका निभाएगा। किसी भी प्रकार के मामूली बुखार या सूजन के ईलाज के विषय में आपको सतर्कता बनाए रखनी होगी। ऐसे रोगों का शीघ्र उपचार कराने से ये समय पर नियंत्रित रहेंगे।

नवम्बर 2030 के लिए फलादेश

स्वास्थ्य को स्थिर रूप में उत्तम बनाए रखने के लिए इस माह की ग्रह, घटनाएं आपको सहयोग कर रही हैं। पाचन तंत्र, पुरानी बीमारियों की गड़बड़ी, पेट फूलना एवं वायु रोग के शांत रहने से आपको इन परेशानियों में काफी राहत का अनुभव होगा। अधिक से अधिक सामान्य सावधानियां रखने से आपको कम से कम परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। यह आपको राहत प्रदान करेगा। इसके अतिरिक्त इस माह आपका सौहार्दपूर्ण वातावरण और सकारात्मक स्वभाव के लोगों के साथ रहना आपके स्वास्थ्य के लिए उत्तम रखेगा। साथ ही इस अवधि में अप्रिय परिवेश से दूर रखना आपके स्वास्थ्य सुख को बढ़ाएगा। आपके आस पास का सौहार्दपूर्ण वातावरण आपके स्वास्थ्य की स्थिति का निर्धारण करने में प्रमुख भूमिका अदा करेगा। इसलिए अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखना इस माह आपके हाथ रहेगा।

दिसम्बर 2030 के लिए फलादेश

यह माह आपके लिए सहायक माह होकर आपके स्वास्थ्य को शुभ आशीर्वाद प्रदान कर रहा है। कुछ मामूली समायोजनों को अपना कर आप अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखेंगे। इस माह में सबसे महत्वपूर्ण यह रहेगा कि आपको अत्यधिक मेहनत से बचना होगा। स्वास्थ्य को अनुकूल बनाए रखने के लिए सबसे पहले आपको अपने दैनिक कार्यों का एक कार्यक्रम तैयार करना होगा। कार्यभार की अधिकता से आपके शारीरिक और मानसिक संसाधनों पर अनुचित दबाव आपके स्वास्थ्य के लिए अनुकूल नहीं होगा। आपके आसपास का वातावरण भी आपके स्वास्थ्य को काफी हद तक निर्धारित करेगा। किसी भी तरह के अप्रिय स्थानों और अप्रिय लोगों से बचना आपके स्वास्थ्य सुख को बढ़ाएगा। इस माह को उत्तम बनाए रखना आपके लिए सहज होगा। इसके अलावा यह माह आपके स्वास्थ्य के लिए एक उत्तम माह सिद्ध होगा।

दशा विश्लेषण

महादशा :- चन्द्र
(27/05/2021 - 27/05/2031)

चन्द्र महादशा की अवधि दस वर्ष है। आपकी कुण्डली में यह दशा 27/05/2021 को आरम्भ होगी और 27/05/2031 को समाप्त होगी।

आपकी जन्मकुण्डली में चंद्र तृतीय भाव में अवस्थित है जो मानसिक प्रवृत्ति, बुद्धि अध्ययन के प्रति झुकाव, साहस, आपके भाई-बहनों, अफवाहों, गले, हँसली, बाँहों और स्नायु तंत्र का प्रतिनिधित्व करता है।

दस वर्षों की इस अवधि में आपको शांति तथा समृद्धि की प्राप्ति होगी और ईश्वर में आपकी निष्ठा होगी।

स्वास्थ्य :

इस अवधि में आपको सुख और उत्तम जीवन की प्राप्ति होगी। आप स्फूर्ति का अनुभव करेंगे और अपने कर्तव्यों का पालन उत्तम ढंग से करेंगे। किसी बड़े रोग या दुर्घटना की सम्भावना नहीं है।

अर्थ और सम्पत्ति :

तृतीय भाव का स्वामी होने के कारण चन्द्र इस बात के संकेत देता है कि आपकी धर्म-कर्म में प्रवृत्ति होगी जिससे आपका जीवन सुखमय, अनुकूल तथा सुव्यवस्थित होगा। इस अवधि में आप बहुत अधिक धनोपार्जन करेंगे और अपनी सम्पत्ति और बैंक बैलेंस में वृद्धि करेंगे। अगर व्यवसायी हैं तो नया व्यवसाय आरम्भ करेंगे और अगर सेवारत हैं तो आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए नये मार्गों की खोज में रहेंगे जिसके लिए आप यात्राओं पर भी जा सकते हैं।

व्यवसाय :

आप अपनी व्यावसायिक स्थिति में सुधार के लिए यात्राओं पर जा सकते हैं क्योंकि आप सक्रिय, यात्रा-प्रिय तथा बहादुर हैं। व्यवसाय में सुधार के लिए किसी कार्य का अवसर भी प्राप्त हो सकता है। आपके मस्तिष्क में नये विचार उभरेंगे जिनकी सामाजिक और व्यवसाय के क्षेत्र में सराहना होगी और वे जीवन की उन्नति और अच्छे कार्य के लिए प्रेरित करेंगे।

पारिवारिक जीवन :

आपका पारिवारिक जीवन पूर्ण अनुकूल तथा सौहार्दपूर्ण रहेगा क्योंकि आपकी जन्मकुण्डली में चन्द्र की आपके पिता के भाव अर्थात् नवम भाव पर दृष्टि है। पिता के साथ संबंधों में सुधार होगा और दैनिक और व्यावसायिक कार्यों में आपकी बहुत मदद करेंगे। आपके माता से कुछ प्राप्त होने के संकेत हैं। आपके भाई-बहनों के साथ आपके संबंध सौहार्दपूर्ण रहेंगे। आपके बच्चे आपके आज्ञाकारी होंगे और कुल मिलाकर पारिवारिक वातावरण तथा जीवन संतोषजनक रहेंगे।

शिक्षा पशिक्षण :

तृतीय भाव के स्वामी की अपने ही भाव में स्थिति आपको साहित्य, ज्योतिष और पुराणों के अध्ययन की ओर प्रवृत्त करेगी। आपकी ईश्वर में निष्ठा होगी। पत्नी से समर्थन किसी भी स्थिति में कम नहीं होगा।



FUTUREPOINT
Astro Solutions



एक्स-35, ओखला फेज-2, नई दिल्ली-110020 फोन:- 011-40541000, 40541020
Web: www.futurepointindia.com, e-mail: mail@futurepointindia.com

अंतर्दशा :- चन्द्र - शनि
(26/08/2025 - 27/03/2027)

चंद्र महादशा की अवधि 10 वर्ष है। इस महादशा में शनि की अंतर्दशा 1 वर्ष 7 मास रहेगी। आपके लिए चंद्र महादशा 27/05/2021 को प्रारंभ हुई और 27/05/2031 को समाप्त होगी। शनि अंतर्दशा 26/08/2025 को प्रारंभ होकर 27/03/2027 को समाप्त होगी।

शनि आपकी जन्मपत्रिका के प्रथम भाव में स्थित है। प्रथम भाव शारीरिक बनावट, आकृति, स्वास्थ्य, जन्मजात स्वभाव और आदतें, सम्मान, गरिमा, सामान्य शुभत्व, चेहरे का ऊपरी भाग, आयु और जीवन की रुपरेखा आदि का परिचायक है। लग्न में स्थित होकर शनि आपकी कुंडली के 3,7,10 भावों पर अपनी दृष्टि डाल रहा है।

इस अवधि में आप अधार्मिक और परंपराविरुद्ध हो सकते हैं। स्वास्थ्य कमजोर हो सकता है। वातरोगों से बचाव करें। अधिकारी वर्ग अप्रसन्न हो सकता है। सत्ताच्युत हो सकते हैं।

हर कदम पर सावधानी की आवश्यकता है। अरिष्ट से बचाव के लिए सोने या चांदी में जड़ा हुआ नीली रत्न दाहिनी हाथ की मध्यमा उंगली में, शनिवार के दिन रात्रि भोजन के बाद, पूजा करने के बाद धारण करें। काले घोड़े की नाल का छल्ला भी दाहिने हाथ की मध्यमा उंगली में शनिवार की रात्रि में धारण करें।

अंतर्दशा :- चन्द्र - बुध
(27/03/2027 - 26/08/2028)

चंद्र महादशा की अवधि 10 वर्ष है। इस महादशा में बुध की अंतर्दशा 1 वर्ष 5 मास रहेगी।

आपके लिए चंद्र महादशा 27/05/2021 को प्रारंभ हुई थी और 27/05/2031 को समाप्त होगी। इसमें बुध की अंतर्दशा 27/03/2027 को प्रारंभ होकर 26/08/2028 को समाप्त होगी।

बुध आपकी जन्मपत्रिका के नवम भाव में स्थित है। नवम भाव श्रद्धा, भाग्य, धार्मिक और आध्यात्मिक विचार, अंतर्ज्ञान, भविष्यज्ञान, उपासनास्थल, पिता, धर्मगुरु, लंबी यात्राएं, हवाई यात्रा, उच्च शिक्षा और घुटनों का प्रतिनिधि है। बुध नवम भाव में स्थित होकर कुंडली के तृतीय भाव पर दृष्टि डाल रहा है और उसके कारकत्व पर प्रभावी हो रहा है। इस अवधि में आप ज्ञान और धन अर्जित करेंगे। आपका दृष्टिकोण वैज्ञानिक रहेगा। आप देश-विदेश में व्याख्यान दे सकते हैं। विदेश से आपके लिए आमंत्रण आ सकते हैं। पिता के साथ आपके संबंध मधुर रहेंगे।

शुभत्व में वृद्धि और अरिष्ट से बचाव के लिए बुध के तांत्रिक मंत्र के 36000 जाप करें।

अंतर्दशा :- चन्द्र - केतु
(26/08/2028 - 27/03/2029)

चंद्रमा की महादशा की अवधि 10 वर्ष है। इसके अंतर्गत केतु अंतर्दशा 7 मास की रहेगी। आपके लिए चंद्र महादशा 27/05/2021 को प्रारंभ हुई ओर 27/05/2031 को समाप्त होगी। केतु अंतर्दशा 26/08/2028 को प्रारंभ होकर 27/03/2029 को समाप्त होगी।

केतु आपकी जन्मपत्रिका के द्वादश भाव में स्थित है। द्वादश भाव हानि, बाधाएं, धन के दुरुपयोग, धोखा, दान, परिवार से अलगाव, दुख, छुपे दुश्मन, कांड, गुप्त दुख, शैयासुख और विदेश में जीवनयापन का संकेतक है। द्वादश में स्थित होकर केतु आपकी कुंडली के छठे भाव पर दृष्टि डाल रहा है। केतु और राहु छायाग्रह हैं जिनकी कोई राशि नहीं होती। वास्तव में वे चंद्रमा के दो पात हैं। मनुष्य के जीवन पर इनका बहुत प्रभाव पड़ता है।

इस अवधि में आपका मष्तिष्क बेचैन हो सकता है; आप इधर-उधर भटक सकते हैं। विदेश भी जा सकते हैं। गरीब लोगों की सहायता करेंगे। अपने स्तर के लोगों के साथ व्यवहार में सावधानी की आवश्यकता है। भटकने के कारण संचित धन में कमी आ सकती है।

अरिष्ट से बचाव के लिए केतु के तांत्रिक मंत्र के 72,000 जाप करें।

अंतर्दशा :- चन्द्र - शुक्र
(27/03/2029 - 26/11/2030)

चंद्र की महादशा की अवधि 10 वर्ष है। आपके लिए यह 27/05/2021 को प्रारंभ होकर 27/05/2031 को समाप्त होगी।

इस महादशा में शुक्र की अंतर्दशा 1 वर्ष 8 मास रहेगी। आपके लिए यह 27/03/2029 को प्रारंभ होकर 26/11/2030 को समाप्त होगी।

शुक्र आपकी जन्मपत्रिका के अष्टम भाव में स्थित है। अष्टम भाव आयु, विरासत, दुर्घटना, दुर्भाग्य, दुख, चिंता, निराशा, हानि, बाधा, चोरी और डकैती का प्रतिनिधि है।

इस अवधि में आप सौभाग्यशाली होंगे। धन-धान्य से परिपूर्ण रहेंगे। सब सुख-सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। भावनात्मक समस्याओं से सावधान रहें।

अरिष्ट से बचाव के लिए निम्न उपाय करें :

1. चींटियों को शक्कर और आटा दें।
2. कन्याओं को खीर खिलाएं।
3. भोजन से पहली चपाती निकालकर गाय को दें।
4. लक्ष्मीजी की उपासना करें।

**अंतर्दशा :- चन्द्र - सूर्य
(26/11/2030 - 27/05/2031)**

चंद्रमा की महादशा की अवधि 10 वर्ष होगी। आपके लिए यह 27/05/2021 को प्रारंभ होगी और 27/05/2031 को समाप्त होगी।

इस महादशा में सूर्य की अंतर्दशा की अवधि 6 मास होगी जो आपके लिए 26/11/2030 से प्रारंभ होकर 27/05/2031 को समाप्त होगी।

सूर्य आपकी जन्मपत्रिका में अष्टम भाव में स्थित है। अष्टम भाव आयु, विरासत, दुर्घटना, दुर्भाग्य, दुख, चिंता, निराशा, हानि, बाधा, चोरी और डकैती का प्रतिनिधि है। सूर्य सर्वाधिक बली ग्रह है।

इस अवधि में आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा। वाक्शक्ति प्रबल रहेगी, परंतु आर्थिक तंगी और निराशा की आशंका है। सट्टेबाजी या अन्य माध्यम से अचानक लाभ हो सकता है।

जीवन में कुछ अप्रत्याशित घटनाएं हो सकती हैं जो आपकी स्मृति पर अमिट छाप छोड़ेंगी। अरिष्ट से बचाव और शुभत्व में वृद्धि के लिए निम्न टोटके लाभदायक हैं।

1. दूध और शहद का सेवन करें, अग्नि में दूध अर्पित करें।
2. गरीबों को आटा, गुड़ और तांबे का दान करें।
3. किसी नदी, नहर आदि में तांबे के सिक्के डालें और उन्हें प्रवाहित होते देखें।